



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 2001 (श्रावण 27, 1923)  
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 2001 (SRAVANA 27, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

### भाग I—खण्ड 4 [PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

सेना शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2001

सं. 467, दिनांक 18 जुलाई 2001—राष्ट्रपति महर्षि  
निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

सं. 466, दिनांक 13 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, भारतीय वायु सेना सेवा के अधिकारी (86) तथा रक्षा मंत्रालय में उच्च सचिव श्री वीरेंद्र दास को 26 जून 2001 पूर्वाह्न से 31 अगस्त, 2003 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रादेशिक सेना कमीशन

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री आर. सी. शर्मा को 18 जून, 2001 को पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह को 29 मई, 2001 को पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में डेस्क अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एसएस-32385 अब टीए-42385 भूतपूर्व कैप्टन एच आर एस राणा को प्रादेशिक सेना एड्ट-1948 के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 98 में लैफ्टनेंट पद पर कमीशन प्रदान किया जाता है। म्थाई सेना की 09 माल 01 महीने तथा 03 दिन की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में दिनांक 27 सितंबर 89 से सेकण्ड लैफ्टनेंट पद पर वरीयता दी जाती है। पिछली तिथि से वरीयता के कारण उन्हें प्रादेशिक सेना विनियम 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) के अंतर्गत दिनांक 27 सितंबर 92 से लैफ्टनेंट तथा 27 सितंबर 96 से कैप्टन पद पर प्रोन्नति तथा वसंतधीर प्रदान की जाती है।

एन. एन. माथर  
अधर सचिव

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नीयित नियुक्ति करते हैं :—

प्रादेशिक सेना कमीशन

एस एस-34722 अद टीए-42386 भूतपूर्व कौप्टन एस एस बरार बड़े प्रादेशिक सेना एक्ट—1948 के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 98 से लीफ्टनेंट पद पर कमीशन प्रदान किया जाता है। स्थिति सेना की 05 साल और 27 दिन की सेवा के लिए उन्हें प्रादेशिक सेना में दिनांक 04 अक्टूबर 93 से सीकण्ड/लीफ्टनेंट पद पर बरीयता दी जाती है। पिछली स्थिति से बरीयता के कारण उन्हें प्रादेशिक सेना दिनांक 1948 के पैरा 25(ए) तथा 38(ए) के अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 96 से लीफ्टनेंट तथा दिनांक 04 अक्टूबर 2000 से कौप्टन पद पर प्रोन्नति तथा बोनसवृद्धि दी जाती है।

बी. एन. सिंह  
अधर मीशन

सं. 468, दिनांक 19 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति सहर्ष तथा संशोधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नीयित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

प्लाइंग आर्गनर के पद पर (परख पर)

(क) प्रज्ञा शर्मा, एम बी डी एस (एम आर-07468-इच्छा) एएमसी—09 अगस्त 2000।

ए के गर्ग, एम बी डी एस (एम आर-07464-ए) एएमसी—09 अगस्त 2000।

विक्रम तरहेम, एम बी डी एस (एम आर-07466-एल), (26042), एएमसी—09 अगस्त 2000।

कमार अभिषेक, एम बी डी एस (एम आर-07465-एल) (26041), एएमसी—09 अगस्त 2000।

दीपाजन डे एम बी डी एस (एम आर-07481-ए) (26046), एएमसी—09 अगस्त 2000।

के. डी. एन. एस. उष  
बिग्रीडयर  
उप मंत्रानिदेशक (कार्यिक)

सं. 469, दिनांक 19 जुलाई 2001—थल सेना अनुदेश 37/38 तथा उसमें जारी संशोधित सेना अनुदेश 4/96, के अंतर्गत राष्ट्रपति सहर्ष सीधे स्थाई निम्नीयित नियुक्ति करते हैं :—

(सीधे स्थाई कमीशन)

सैनिक दल चिकित्सा और

(सीधे स्थाई कमीशन)

लीफ्टनेंट के पद पर (परख पर)

भरत खन्ना, डी डी एस (डी एन डी गैर) (डी आर-10520-कौ)—22-5-2001 (पूर्वस्थित)।

गुरुप्रसादा, डी डी एस (बंगलौर) (डी आर-10519-कौ)—13-4-2001 (पूर्वस्थित)।

सुनील बंगलूर, डी डी एस (कर्नाटक) (डी आर-10521-एफ)—21-5-2001 (पूर्वस्थित)

थल सेना अनुदेश 15/79, तथा उसमें जारी संशोधित सेना अनुदेश 4/96, 5/96 के अंतर्गत राष्ट्रपति सहर्ष 5 वर्ष के लिए निम्नीयित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक दल चिकित्सा और

(अल्पकालीन कमीशन)

लीफ्टनेंट के पद पर (परख पर)

सरिहारी ए (डी एस-12034-ए)—02-3-2001 (पूर्वस्थित)।

आर. के. संठी  
बिग्रीडयर  
उप डी डी डी एस

सं. 470, दिनांक 17 जुलाई 2001—राष्ट्रपति सहर्ष जे. हरि उनीयल (आई. सी.-13971) को 01 फरवरी 2001 (पूर्वस्थित) से इंजीनियरिंग और के कर्नल कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष में. जे. जे. डी एस बंदी (आई. सी.-15084) को 10 अप्रैल 2001 (पूर्वस्थित) से इंजीनियरिंग कोर कंस. लि. कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष में. जे. माधव आरन (आई. सी.-15025) को 10 अप्रैल 2001 (पूर्वस्थित) से इंजीनियरिंग कोर के कर्नल कमान्डेंट के पद में नियुक्त करते हैं।

एन. मोंरिययन  
एस सी एस ओ  
एम एस (एक्स)

नौसेना शाखा

सं. 471, दिनांक 16 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. एम एफ/1822/डी ई एस/228/यू एस (पी)/डी (एन-2) दिनांक 02 फरवरी 2001 के अधीन भारतीय नौ सेना की विद्युत शाखा में निम्नीयित नियुक्ति उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :—

म. ले. के रैंक में (परखाधीन)

सीधी भर्ती (बहुत शाखा)

नाम, निजी सं., कमीशन की किम्म और कमीशन की तिथि  
प्रसाद राजो एन एस 51633 आई अल्पकालीन—04-01-99।

नायर विजय गोपालन क्यूट्टी 51634-जंड अल्पकालीन—  
04-01-99 ।

कुमार प्रसाद ए के 51635-ए अल्पकालीन—04-01-99 ।

कुमार लीरसोष  
कमाण्डर

जी डी एम पी आर (आर एण्ड आर-2)

रक्षा मंत्रालय

सं. 472, दिनांक 13 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आरखंड : 82) के अधिकारी श्री राजीव गौड़ा की रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) के निजी सचिव के रूप में नियुक्ति की अधीन 18-6-2001 के बाद तीन महीने की अधीन के लिए 18-9-2001 तक यह उन्हें अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यमुक्त किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले ही और आगे बढ़ाते हैं ।

एन. एन. माथुर  
आवर सचिव

सं. 473, दिनांक 13 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी (जे. एफ : 80) तथा रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती स्मिता चुप का कार्यकाल/उन्हें दी गई अर्जित छुट्टी समाप्त होने पर उनकी सेवानिवृत्ति 11 जुलाई 2001 (पूर्वाह्न) से आरखंड सरकार को सौंपी जाती है ।

एन. एन. माथुर  
आवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 474 दिनांक 17 जुलाई, 01—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सेना सेवा कौर

(यांत्रिक परिवहन)

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार पौधू रेड्डी राघवा रेड्डी (जे० सी०—660441  
एफस) 07 अप्रैल, 2001/01 अप्रैल, 2001 से।

सूबेदार वेलयुधन पुरुषोत्तमन (जे० सी०—660468 पी)  
01 मई, 2001 ।

सूबेदार रमेश चन्द (जे० सी०—660470 एम) 01 मई,  
2001 ।

सूबेदार बुध राम (जे० सी०—660476 एन) 01 मई,  
2001 ।

ड (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित  
किये बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 2001 से दी जायेगी) ।

सूबेदार मेजर लिपिक पूर्ति (सामान्य ड्यूटी/स्टाफ ड्यूटी)

सूबेदार संतोक सिंह (जे०सी०—209857 एफस)—01  
अगस्त 2000 ।

सूबेदार ए० संवाशिवा चैटी (जे०सी०—209873 डब्ल्यू)  
—01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार नन्द किशोर वर्मा (जे०सी०—209906 डब्ल्यू)—  
01 अगस्त 2000 ।

सूबेदार विक्रम सिंह (जे० सी०—209908 एफ)—01  
अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार नन्दा कुमार बर्मन (जे०सी०—214668 वाई)—  
01 अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार नित्या लाल घोष (जे०सी०—214698 एफ)—  
01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार योगेन्द्रा माह (जे०सी०—221587 एफ)—01  
जनवरी 2001 ।

सूबेदार ए० पी० राव (जे०सी०—205002 वाई)—  
01 फरवरी 2001 ।

सूबेदार श्रीमा चरण साहु (जे०सी०—221576एफ)—06  
फरवरी 2001 ।\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी) ।

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी—640032-एच)—01 मार्च  
2001 ।

सूबेदार रमेश चन्द (जेसी—640035 डब्ल्यू)—01 मार्च  
2001 ।

सूबेदार लज्जा राम शर्मा (जेसी—640085 एफ) —  
01 मार्च 2001 ।

सूबेदार गंगाधरण नायर बी (जेसी—640091 पी)—  
01 मार्च 2001 ।

सूबेदार जी तैलानाथन (जेसी—640096 एन)— 01 मार्च  
2001 ।

सूबेदार राज सिंह (जेसी—640108 एफस)—01 अप्रैल  
2001 ।

सूबेदार दलीप कुमार सोल (जेसी—640274 एल)—  
01 अप्रैल 2001 ।

सूबेदार नरेन्द्रा कुमार (जेसी—640278 एफ)—01  
अप्रैल 2001 ।

सूबेदार रामरेश प्रसाद (जेसी—640285 एफस)—01  
अप्रैल 2001 ।

## सूबेदार लिपिक (सामान्य ड्यूटी/स्टाफ ड्यूटी)

नायब सूबेदार पिरा राम महोला (जे० सी०-640996 एक्स) — 18 मई 2000 ।\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 मई 2000 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह कालकोटी (जे० सी०-640997 ए) — 01 मई 2000 ।

नायब सूबेदार ओमप्रकाश (जे० सी०-640999-एल) 30 जून 2000 ।\*\*

\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार मुंशी राम (जे० सी०-641000-एम) 01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार गगन बिहारी परीषा (जे० सी०-641170 डब्ल्यू) — 01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार निरन्जन दान (जे० सी०-641001-पी) 01 जून 2000 ।

नायब सूबेदार जया कृष्णा साहू (जे० सी०-641002-वाई) — 13 नवम्बर 2000 ।\*\*\*

\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार भंजन सिंह अधिकारी (जे० सी०-641003 ए) — 01 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार सुवास चन्द्रा मलिक (जे० सी०-641004 एक्स) — 01 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार विनय कुमार सिन्हा (जे० सी०-641005 एल) — 01 जुलाई 2000 ।

नायब सूबेदार समपूरण चन्द भारद्वाज (जे० सी०-641006 एन) — 01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार महोम्मद नमीग अहमद लशंकर (जे० सी०-641007-डब्ल्यू) — 17 सितम्बर 2000 ।\*\*\*\*

नायब सूबेदार मोहन बहरा (जे० सी०-641008-वाई) 19 अगस्त 2000 ।\*\*\*\*

\*\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार भूवेव सिंह राठौर (जे० सी०-640009-एफ) 18 अगस्त 2000 ।"

नायब सूबेदार हरि घयानन्द यादव (जे० सी०-641171-वाई) 21 अगस्त 2000 ।"

"सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार जयबीर सिंह (जे० सी०-641172-एफ) 01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार नजरुल इस्लाम (जे० सी०-641011-वाई) 18 अगस्त 2000 ।"

"सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार कूलर्षीप चन्व कटोच (जे० सी०-641012-एफ) 01 अगस्त 2000 ।

नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जे० सी०-641014-एम) 01 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार तेजबीर गिह (जे० सी०-641016-एक्स) 01 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार रामकिशन (जे० सी०-641017-ए) 01 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार जोगेन्द्रा सिंह बिष्ट (जे० सी० 641018-एच) 01 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार कालियप्पन मुथुविरप्पन (जे० सी०-641175 पी) 21 दिसम्बर 2000 ।"

"सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार सुवरत्ना दत्ता (जे० सी०-641176 एक्स) — 13 अक्टूबर, 2000 । :

नायब सूबेदार सरया कुमार सिंह (जे० सी०-641178 एच) — 24 अक्टूबर, 2000 । :

नायब सूबेदार ओम प्रकाश सा (जे० सी०-641179 एल) — 03 अक्टूबर, 2000 । :

. (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर, 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार वकील सिंह (जे० सी०-641180 ए) — 01 सितम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार जिया गाल (जे० सी०-641181 एच) 01 सितम्बर, 2000 ।

नायब सूबेदार गणेश दत्त (जे० सी०-641015 पी) — 01 अक्टूबर, 2000 । : :

. (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 04 सितम्बर, 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार मदन सिंह (जे० सी०-641019 एल) — 01 अक्टूबर, 2000 ।

- नायब सूबेदार पी० एम० मोहन (जे० सी०-641186  
वाई)—01 अक्टूबर, 2000 ।
- नायब सूबेदार सत्या प्रकाश वसिष्ठ (जे० सी०-641186  
एफ)—03 अक्टूबर, 2000 । : : :
- : : : (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर, 2000 से दी जाएगी ।)
- नायब सूबेदार संतोष कुमार (जे० सी०-640924 एन)  
—01 अक्टूबर, 2000 ।\*
- नायब सूबेदार गायकवाड सम्पत राम राव (जे० सी०-  
640928 के)—14 नवम्बर, 2000 ।\*
- \*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 मई, 1999 से दी जाएगी ।)
- नायब सूबेदार अरून सरकार (जे० सी०-641188 एम)  
—15 दिसम्बर, 2000 ।\*\*
- \*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर, 2000 से दी जाएगी ।)
- नायब सूबेदार हरनाथ सिंह (जे० सी०-641189 पी)—  
01 नवम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार मुस्लीमन् पिल्ले (जे० सी०-641190-  
के)—01 दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार पारथा सारथी एम (जे० सी०-641191-  
एम)— 01 दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार तुलेश्वर सोनोवाल (जे० सी०-641201  
एल)—01 दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार मुंशी राम (जे० सी०-641202-एन)  
01—दिसम्बर 2000 ।
- नायब सूबेदार संतोक सिंह कटोच (जे० सी०-641203-  
डब्ल्यू)—01 जनवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जे० सी०-641204वाई)  
—01 जनवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार बच्चन लाल (जे० सी०-641205एफ)—  
—01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार जितेन्द्र पाल सिंह (जे० सी०-641206-के)—  
01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार निरंजन राणा (जे० सी०-641613-एम)—  
01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार कपूर कुमार शर्मा (जे० सी०-631107-एम)  
—01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार गुरु देव बोन (जे० सी०-641208-पी)—  
—01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार रोनक सिंह (जे० सी०-641209-एएम)—  
01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश शर्मा (जे० सी०-641210-एम)—  
01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार कटोच (जे० सी०-641212-  
एक्स)—01 फरवरी 2001 ।
- नायब सूबेदार सरूप गोस्वामी—जे० सी०-(641213-ए)—  
01 मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार बलहार सिंह (जे० सी०-641214-एफ)—  
01 मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार प्रभाकर दास (जे० सी०-641216-एन)—  
1 मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार जयन के के (जे० सी०-641217 डब्ल्यू)—  
01 मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार राजपाल (जे० सी०-641218)—वाई)—01  
मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार अरून के (जे० सी०-641219-एफ)—01  
मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार सुखबिन्दर सिंह (जे० सी०-641220-डब्ल्यू)  
—01 मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार तोमब्रे उमाकान्ता (जे० सी०-641221-वाई)  
—01 मार्च 2001 ।
- नायब सूबेदार कुलवीप चन्द (जे० सी०-641222-एफ)—  
01 अप्रैल 2001 ।
- सूबेदार मेजर (स्टोर कीपर टेक्नीकल) के रैंक में  
सूबेदार हरीश चन्द्र जोशी (जे० सी०-208923 के)—  
01 अगस्त 2000 ।\*
- सूबेदार गनेश (जे० सी०-208941 एम)—06 नवम्बर  
2000 ।\*
- सूबेदार हरदयाल सिंह मन्धू (जे० सी०-208951 डब्ल्यू)  
—15 सितम्बर 2000 ।\*
- सूबेदार डाल चन्द (जे० सी०-213635 एफ)—16  
अक्टूबर 2000 ।\*
- \*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जाएगी ।
- सूबेदार निवर्तन दास (जे० सी०-208990 पी)—01  
अक्टूबर 2000 ।
- सूबेदार सुधा सिंह (जे० सी०-208979 डब्ल्यू)—01  
अक्टूबर 2000 ।

सूबेदार मन्दीप सिंह (जे०सी०-208987 पी)---01  
दिसम्बर 2000 ।\*\*

\*\*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अक्टूबर 2000 से दी जाएगी ।

सूबेदार रुधा मोहन राय (जे०सी०-208996 डब्ल्यू)---  
01 दिसम्बर 2000 ।

सूबेदार हल्बा राम (जे०सी०-209003 वाई)---22  
दिसम्बर 2000 ।\*\*\*

\*\*\*सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी ।

सूबेदार प्रथीदास डोगरा (जे०सी०-208942 पी)---01  
फरवरी 2001 ।

सूबेदार मिवा मकरम टी० क० (जे०सी०-199569  
डब्ल्यू)---14 फरवरी 2001 ।@

@सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी ।

सूबेदार आजाद सिंह नरवाल (जे०सी०-199579 ए  
02 फरवरी 2001) ।

सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी ।

सूबेदार (स्टोर कीपर टेक्नीकल) के रैंक में

नायब सूबेदार सिधे प्रताप जगप्पा (जे०सी०-213669 ए  
22 दिसम्बर 2000) ×

× सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 16 जून 1998 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार राम सबूज दुबे (जे०सी०-640337 एफ  
01 सितम्बर 2000) ×

× सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 20 सितम्बर 1999 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार तनिक प्रसाद सिंह (जे०सी०-213556 एम  
---18 दिसम्बर 2000) × × ×

× × × सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 13 नवम्बर 1999 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार एम मारीमुत्थु (जे०सी०-208980 एल)---  
09 नवम्बर 2000 ।\*\*\*\*

\*\*\*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 05 अक्टूबर 1999 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार माहनन क (जे०सी 640370 ए)---16  
अप्रैल 2000 ।\*

\*सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अप्रैल 2000 से दी जाएगी ।

नायब सूबेदार राम नरेश राय (जे०सी-640447 एक्स)---  
04 सितम्बर 2000 ।\*\*

\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जून 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार पुरखाराम खाती (जे०सी-215515 एफ)---  
01 जून 2000 ।\*\*\*

\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 1997 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे०सी-640383 एक्स)---  
24 जुलाई 2000 ।\*\*\*\*

नायब सूबेदार देवी दयाल (जे०सी-640386 एल) ---25  
जुलाई 2000 ।\*\*\*\*

\*\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जे०सी-640387 एन)---18  
अगस्त 2000 ।=

नायब सूबेदार पूरन मल (जे०सी-640388 डब्ल्यू)---17  
अगस्त 2000 ।=

= (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार विजय कुमार शर्मा (जे०सी-640779 एफ)  
---12 अगस्त 2000 ।\*\*

\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार अरुण कुमार सिंह (जे०सी-640390 एन)---  
04 सितम्बर 2000 ।\*\*\*

\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र निवारी (जे०सी-640391 डब्ल्यू)  
---01 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार राजन पी (जे०सी-640449 एन)---01  
सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार गुरुवीर प्रसाद (जे०सी 640393 एफ)---  
01 सितम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार रबी धीम पाल (जे०सी-640389 वाई)---  
06 सितम्बर 2000 ।\*\*\*\*

\*\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जाएगी ।)

नायब सूबेदार प्रभू नाथ शर्मा (जेसी-213836 ए) —  
01 अक्टूबर 2000 ।\*

\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
वरिष्ठता 22 अप्रैल 1998 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार त्रिजेन्द्र कुमार तिवारी (जेसी-640073  
एम) — 21 नवम्बर 2000 ।\*\*

\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
वरिष्ठता 01 जून 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार ई० भूपाल रेड्डी (जे०सी०-640392 बाई)  
— 01 नवम्बर 2000\*\*\* ।

\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार जॉर्ज एम के (जे०सी०-640450  
एक्स) — 01 नवम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार निरंजन बिसोई (जे० सी०-640395  
एम) — 22 नवम्बर 2000\*\* ।

नायब सूबेदार भूदवा बबाला (जे०सी०-640394के) —  
04 दिसम्बर 2000\*\* ।

\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जे० सी०-640396 पी) —  
12 जनवरी 2001\*\*\* ।

\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार नन्द किशोर शर्मा कौशिक (जे० सी०-  
640397 एक्स) — 01 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र पान्डे (जे०सी०-640399 एच) —  
01 दिसम्बर 2000 ।

नायब सूबेदार रविन्द्रन पिल्ले पी के (जेसी-640400 एम  
1 जनवरी 2001) 2 : : :

नायब सूबेदार नोरदन शेरपा (जेसी-640452 एच 7 फरवरी  
2001) 2 : : :

नायब सूबेदार अपरना कृष्णा गौदर (जेसी-640402 एक्स  
5 फरवरी 2001) 2 . . .

नायब सूबेदार राम कुमार सिंह (जेसी-640403 ए 3 जनवरी  
2001) 2 : : :

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-640404 एच 10 फरवरी  
2001) 2 . . .

2 : : : (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले  
बिना वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार कुन्जमन एस (जेसी-640405 एल 4  
दिसम्बर 2000) ।†

1 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार गोपी मोहन पिछा (जेसी-640406 एन  
1 दिसम्बर 2000) ।

नायब सूबेदार आनिल कुमार सिंह (जेसी-640407 डब्ल्यू)  
15 दिसम्बर 2000 ।††

†† (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार एम पुन्नु स्वामी (जेसी-640408 बाई  
2 दिसम्बर 2000) ।†††

नायब सूबेदार लोविलेचन एम एस (जेसी-640409 एक  
5 फरवरी 2000) ।†††

††† (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
वरिष्ठता 1 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार मुनीराम मुदोई (जेसी-640454 एन  
1 जनवरी 2001) ।

नायब सूबेदार नलगामन पी (जेसी-640455 डब्ल्यू 1  
जनवरी 2001) ।

नायब सूबेदार अजयनारायन सिंह (जेसी-640486 डब्ल्यू  
1 जनवरी 2001) ।

नायब सूबेदार मुकांसी निसार लतीफ खॉन (जेसी-  
640487 बाई 6 फरवरी 2001) ।†

नायब सूबेदार कमलेश्वर प्रभाव दुबे (जेसी-640488 एक  
9 फरवरी 2001) ।†

नायब सूबेदार राधेश्याम मन्डल (जेसी-640461 के 12  
फरवरी 2001) ।†

नायब सूबेदार विजय कुमार देव (जेसी-640490 बाई  
10 फरवरी 2001) ।†

नायब सूबेदार शेख अब्दुल रहमान (जेसी-640491 एक  
7 फरवरी 2001) ।†

† (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना  
वरिष्ठता 1 फरवरी 2001 से दी जाएगी) ।

आर अतुर्वेदी, अवर सचिव

सं० 475, तारीख 18 जुलाई 2001—राष्ट्रपति  
निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फैण्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैण्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) कृष्ण चन्द्र सेहवाल (14900989 एन  
अब जेसी-419385 एल) 1 मई 2001।

जोस बोमस, अवर सचिव

सं० 476, तारीख 19 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

सेना शिक्षा कौशल

सूबेदार के रैंक में

पी ए सूबेदार/क्लर्क दरबारी लाल माधुर (जेसी-802532ए)  
19 मार्च 1999।\*

\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 07 फरवरी 1999 से दी जाएगी)।

पी ए सूबेदार/क्लर्क रामवीर बहुर (जेसी-802533एच)  
01 मई 1999।

पी ए सूबेदार/क्लर्क प्रभु सिंह शोखावत (जेसी-802540  
वाई) 14 अगस्त 2000।\*\*

\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2000 से दी जाएगी)।

पी ए सूबेदार क्लर्क बिकाश चन्द्र मोहनती (जेसी-802541  
एफ) 01 सितम्बर 2000।

पी ए सूबेदार/क्लर्क कवम एकनाथ मखाराम (जे सी-  
802590के) 01 सितम्बर 2000।

पी ए सूबेदार/क्लर्क वासुदेवन पीसी (जेसी-802542के)  
01 सितम्बर 2000।

पी ए सूबेदार/क्लर्क थोमस मंथ्य (जेसी-802554वाई)  
05 सितम्बर 2000।:

पी ए सूबेदार/क्लर्क करनैल सिंह (जेसी-802558पी)  
25 सितम्बर।:

: (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2000 से दी जाएगी)।

पी ए सूबेदार/क्लर्क रणवीर सिंह (जेसी-802623के) 01  
अक्टूबर 2000।

पी ए सूबेदार/क्लर्क गणेश पंडित (जेसी-802626एक्स)  
01 अक्टूबर 2000।

पी ए सूबेदार/क्लर्क राजेन्द्र सिंह यादव (जेसी-802627ए)  
08 नवम्बर 2000।-

पी ए सूबेदार/क्लर्क जोसेफ सी आर (जेसी-802630ए)  
24 नवम्बर 2000।-

-(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2000 से दी जाएगी)।

पी ए सूबेदार दविन्द्र मिश्र (जेसी 802235एम) 02  
जनवरी 2001।:

पी ए सूबेदार प्रेम लाल देवरानी (जेसी-802236पी)  
01 दिसम्बर 2000।

पी ए जोगिन्द्र सिंह तोमर (जेसी-802237एक्स) 01  
दिसम्बर 2000।

पी ए सूबेदार सत्यवान यादव (जेसी-802240एक्स) 28  
दिसम्बर 2000।:

पी ए सूबेदार सुरेश पाल सिंह यादव (जेसी-802241ए)  
07 दिसम्बर 2000।:

पी ए सूबेदार राम प्रताप चौबे (जेसी-802242एच)  
01 दिसम्बर 2000।

पी ए सूबेदार आनन्द बल्लभ जोशी (जे० सी०-802244  
एन)--06 जनवरी, 2001।:

:(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2000 से दी जाएगी)।

पी ए सूबेदार तैगी दास शिखरकार (जे० सी०-802245  
डब्ल्यू)--05 जनवरी, 2001।\*

पी ए सूबेदार त्रिलोक नाथ पान्डेय (जे० सी०-802246  
वाई)--01 जनवरी, 2001।

पी ए सूबेदार रुद्रनाथ शबुला (जे० सी०-802247 एफ)  
--01 जनवरी, 2001।

पी ए सूबेदार कमलेश वरत सारस्वत (जे० सी०-802250  
एफ)--03 जनवरी, 2001।\*

पी ए सूबेदार अमर बहादुर (जे० सी०-802252 एम)  
--01 जनवरी, 2001।

पी ए सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-802255 ए)--  
01 जनवरी, 2001।



पी ए सूबेदार विनोद रेवाल (जे० सी०-802256 एन)  
—01 जनवरी, 2001।

पी ए सूबेदार महेश प्रताप त्रिपाठी (जे० सी०-802259  
डब्ल्यू)—16 फरवरी, 2001।\*

पी ए सूबेदार राजीव कुमार शान्य (जे० सी०-802260  
एन)—01 जनवरी, 2001।

पी ए सूबेदार/क्लर्क ध्यान सिंह नेगी (जे० सी०-802631  
एच)—01 जनवरी, 2001।

पी ए सूबेदार/क्लर्क जय प्रकाश तिवारी (जे० सी०-  
802654 के)—31 जनवरी, 2001।\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी, 2001 से दी जाएगी।)

पी ए सूबेदार श्री भगवान सिंह चौधरी (जे० सी०-  
802266 एम)—09 फरवरी, 2001।\*\*\*

पी ए सूबेदार राम गोपाल शुक्ल (जे० सी०-802268  
एक्स)—09 फरवरी, 2001।\*\*\*

पी ए सूबेदार फूमन सिंह (जे० सी०-802269 ए)—  
12 फरवरी, 2001।\*\*\*

पी ए सूबेदार विजय कुमार सिन्हा (जे० सी०-802270  
पी)—10 फरवरी, 2001।\*\*\*

पी ए सूबेदार भंवर सिंह (जे० सी०-802272 ए)—  
10 फरवरी, 2001।\*\*\*

पी ए सूबेदार कुमार पाल सारस्वत (जे० सी०-802275  
एन)—12 फरवरी, 2001।\*\*\*

पी ए सूबेदार कृपाल सिंह (जे० सी०-802276 डब्ल्यू)  
09 फरवरी, 2001।\*\*\*

\*\*\* (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2001 से दी जाएगी।)

बलराम वर्मा, अवर सचिव

सं० 477, दिनांक 16 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, निम्न-  
लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेवा

सेना डाक सेवा कोर

सूबेदार/लिपिक (डाक) के रैंक में

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) जगदीश कुमार (जेसी-  
834147के)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) ईस्माक बरघेस (जेसी-  
834149 पी)—1 जून 2001।

2—194GI/2001

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) आर० के० शुक्ला (जेसी-  
834150 के)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) बलवीर सिंह (जेसी-  
834151 एम)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) आज़ाद सिंह (जेसी-  
834152 पी)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) काली राम (जेसी-  
834153 एक्स)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) रोहताण कुमार (जेसी-  
834154 ए)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) काशी प्रसाद (जेसी-  
834155 एच)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) कुलदीप सिंह (जेसी-  
834156 एन)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) आर० सी० यादव (जेसी-  
834157 एन)—1 जून 2001।

नायब सूबेदार/लिपिक (डाक) आ० एम० चौहान (जेसी-  
834158 डब्ल्यू)—1 जून 2001।

आर० एस० चौधरी  
अपर सचिव

विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग कोर

सं० 478, दिनांक 18 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, श्री  
पी० रामा कृष्णन (एस सी) चार्जमैन-1, को दिनांक  
06 अप्रैल, 2001 (पूर्वाह्न) से ई० एम० ई० कोर, रक्षा  
मंत्रालय में वर्कशाप आफिसर ग्रुप 'बी' अब त्हायिक अभियन्ता  
के स्तर पर पदोन्नत करते हैं।

वह दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

टी० सी० जैन, उप सचिव

सं० 479, दिनांक 18 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, महर्षि  
नियन्त्रित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

स्थाई कमीशन

ले० कर्नल से कर्नल के पद पर

एच० के० शर्मा (एम० आर०-4355 एच) ए० एम०  
सी०/पी० सी० 27-02-97 वह ग्रुप कैप्टन बी० आर० जैन  
(एम० आर०-3647) (वा से-24713) से कनिष्ठ एवं  
ग्रुप कैप्टन सी० वा० ए० बदीरिया (एम० आर०-3812)  
(वा० से०-24714) से कनिष्ठ होंगे।

जे० आर० भारद्वाज  
मेजर जनरल  
अपर महानिदेशक

## (बल सेना विभाग)

सं० 480, दिनांक 18 जुलाई 2001—बल सेना अनुदेश 37/78, तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

एयर कोमोडोर से मेजर जनरल व समकक्ष पद पर

आर० सी० धीर (डी० आर०-10206 एल)—  
03-3-2001 परन्तु वैकल्पिक तारीख 01-01-2001 से की जाती है जो कि वेतन व भत्तों पर प्रभावी नहीं होगी।

बल सेना अनुदेश 35/79, तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

(अलकालीन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थाई सेना के रैंक में

विपुल सिंघल (डी एस-11921-ए)—07-4-2001

सर्जन लेफ्टिनेंट (डी) से अर्द्धस्थाई सर्जन ले० कमाण्डर (डी)

श्रीमति श्रुति पहवा (डी एस-11914-के) (79048-बी)  
—03-4-2001।

बल सेना अनुदेश 37/79, तथा उनमें किए गए संशोधन के अधीन राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

स्थाई कमीशन

मेजर से ले० कर्नल के पद पर

तमल चौधरी (डी० आर०-10409 पी)—2-5-2001

मेजर से ले० कर्नल अथवा समकक्ष पद पर

एन० वी० रिवास्कर (डी० आर०-10406 एफ)—  
27-4-2001।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन रैंक में

सी० एम० चट्टोपाध्याय (डी० आर-10517 वाई)—  
19-4-2001।

आर० क० सेठी

बिरोडियर

उप डी जी डी एम

सं० 481, दिनांक 19 जुलाई 2001—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित ए एम सी अधिकारियों को उनके सामने दीय विधि से पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

एम० के० सेतगुप्ता, (एम आर—06943-पी), ए एम सी, 14 सितम्बर 99 (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 17 फरवरी, 2001 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय का अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

के० वी० एन० एस० डोड  
बिरोडियर  
उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं० 482, दिनांक 17 जुलाई, 2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी सं०, नाम व आरं

46679 वी पी सिंह, एसी

46680 जी भाटिया, एसी

46683 एम कोले, एडी आर्टी

46688 बी सिंह इन्फैंट्री

46693 ए वाली, इन्फैंट्री

46694 आर एस बिपनोई, इन्फैंट्री

46696 बी जोशी, एसी

46698 वी गणपथि, इन्फैंट्री

46699 आर के शर्मा, आर्टी

46701 वी हरिहरन, इन्फैंट्री

46702 एस राजेन, इन्फैंट्री

46706 ए शंकर, आर्टी

46708 बी रेखा, एडी आर्टी

46715 वी जिम्बू, एओसी

46717 एस दू गोल, इन्फैंट्री

46720 पी मांगवान, इन्फैंट्री

46725 के आर शिवारमण, एएमसी

46726 जी श्रीनिवास, आर्टी

46727 गे अश्विनी, इन्फैंट्री  
 46730 जे एस शोको, एसी  
 46731 बी जमवाल, आर्टी  
 46734 बी जोशी, इन्फैंट्री  
 46735 डी के सिंह, एएससी  
 46738 आर एस बराहच, एएससी  
 46739 एन गोड, एओसी  
 46740 आर एन स्काट, ए ओ सी  
 46741 एच एस ठिली, आर्टी  
 46743 एन भूटिया, इन्फैंट्री  
 46745 एस त्यागी, एओ आर्टी  
 46747 आर के सैन, ए ओ सी  
 46748 एस त्यागी, मक/इन्फैंट्री  
 46757 एस एस शेरगिल, ए सी  
 46758 कवर डी सिंह, ए सी  
 46760 जे सिंह, आर्टी  
 46761 डी शर्मा, मक इन्फैंट्री  
 46762 एच पी सिंह, इन्फैंट्री  
 46763 पी एस भिण्डर, ए एस सी  
 46765 पी एन राठौड, एएससी  
 46069 ए ए देशपाण्डे, एओसी  
 46770 एन एस मुहाना, आर्टी  
 46771 के जी मोहन्ता, इन्फैंट्री  
 46775 डी एस चानना, एएससी  
 46776 एस एम प्रधान, इन्फैंट्री  
 45779 एस मिहिकी, आर्टी  
 46781 पी रे, एएससी  
 46787 एम एस गडेड, एओ आर्टी  
 46796 ए भटनगर, एओसी  
 46797 ए पुष्करन, एओसी  
 46799 आर एस चाहल, इन्फैंट्री  
 46803 यू निगम, एएससी  
 46805 एम के शर्मा, आर्टी  
 46807 एम तोमर, एओसी  
 46808 ए एस कटियार, आर्टी  
 46814 डी शर्मा, आर्टी  
 46823 डी डी मानिक, एएससी  
 46825 एन सक्सेना, इन्फैंट्री  
 46826 नरेश, एएससी  
 46827 टी आर बेरा, एओसी  
 46828 एस सिन्हा, एएससी  
 46832 ए रामा दसानी, इन्फैंट्री  
 46834 बी श्रीनिवास, एसी

46835 एम सीनी, इन्फैंट्री  
 46836 ए महाजन, मक/इन्फैंट्री  
 46839 ए शर्मा, आर्टी  
 46842 ए भार्गवा, एओ आर्टी

—23 अप्रैल 2001

स्थायी कमीशन (विशेष सूची)

कप्तान से मेजर

एम एल-4598 डी एस बुबे-22 फरवरी 99

(लेकिन वेतन व भत्ते दिनांक 10 जनवरी 2000 से देखें)

लेफ्टिनेन्ट से कप्तान

(विशेष सूची)

एस एल-

4301 एस के जैन, 4302 आर वसुदेव, 4303 कर्क सिंह,  
 4304 यू कनधिकर, 4305 बी एस माल, 4306 हरफूल सिंह,  
 4407 एन एस भाटी, 4308 अर्जुन सिंह, 4309 के बी सीताराम,  
 4310 एल एस सिंह, 4314 डी के दाना, 4315 एमएसबी नैयर,  
 4416 आर एस बिसन, 4317 आर बी सिंह, 4318 टीडी  
 अनथापन, 4321 पी एस शौखान्त, 4319 आर के भल्ला,  
 4320 आर, अशोक कुमार, 4322 एस एस यादव, 4323  
 बी सुन्दावेदीवेलू, 4324 सुरेश चन्द, 4325 एम बी एल  
 नरायणन, 4338 एन जी पात्रा, 4311 अशोक कुमार, 4312  
 बी एस कटारिया, 4313 डी जोशी, 4326 आनन्द कुमार, 4327  
 एस जी द्विवेदी, 4329 पी एस वसनत, 4330 अलोक, 4331  
 जेसीएस भद्रादोरिया, 4332 बीएच लक्ष्मण, 4333 अशोक कुमार,  
 4334 एसएम कलालिया, 4338 पीके जामला, 4336 टी थिरुपथी  
 4337 एराभोटरे, 4339 आरबी सिंह, 4340 एसएस पूनिया,  
 4341 एल के देसाई, 4342 एचजी सिंह, 4343 नानक चन्द,  
 4344 हंस राज, 4345 टीरवीन्द्रन, 4346 पीएस कटारिया,  
 4347 एस सिंह, 4348 बी एस यादव, 4349 उमेश सिंह,  
 4350 बिपिन कुमार, 4352 जेएन बरार, 4353 पीएस ज्योत्सना,  
 4354 एस सी सिंह, 4355 केआर सुन्नु, 4356 एसपी साह,  
 4357 एमएल वर्मा, 4358 एमएन जसवाल, 4359 अरबी गौड़,  
 4360 बीएच नेगी, 4361 दलजीत सिंह, 4362 आर प्रसाद,  
 4363 अभिजीत घोष, 4364 के ड्यानिधी, 4365 राज कुमार,  
 4366 डीआर शर्मा, 4367 आर चाद, 4370 एस कुमार,  
 4368 बीएस रावत, 4369 जोशी शर्मा, 4371 के किशोर,  
 27 अप्रैल 2001

सत्यदेव-सय

एस सी एस ओ, एन एस सी

सं० 483, दिनांक 17 जुलाई, 2001--राष्ट्रपति,  
निम्नांकित पदोन्नति करते हैं।

(नियमित सेना)

स्थायी आयोग

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के मूल रैंक में (समय मान द्वारा)

बी० एल० वर्मा, आईसी-38891 ए ओ सी-07जून 2000।

एम० एस० सिन्हा

सी० एम० ओ०

डी० ए० एम० एस० 8ए

वायु शाखा

सं० 484, दिनांक 18 जुलाई, 2001--राष्ट्रपति, महर्ष  
निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

जू वा अ से वा अफसर

ए० एफ० फिट

251905 आर० पी० वशिष्ठ, 02-06-95

हलैफ्ट फिट

280922 आर० डी० जेता, 21-12-92

इंजन फिट

250008 अम्बिका सिंह, 01-08-95

251393 डी० मिश्रा, 01-08-95

263595 सोने लाल, 01-08-95

263534 मानक चन्द्र, 01-08-95

263725 बी० अरुमुगम, 01-08-95

269587 चन्द्राशेखरन, 01-08-95

269616 रामाधर शर्मा, 01-09-95

263005 जी० आर० कुमार, 01-09-95

248057 एम० एस० न्यामी, 01-09-95

263877 एम० एम० लाल, 01-09-95

263690 राधाकृष्णन्, 01-09-95

269828 एस० एम० सुगरिया, 02-12-95

270130 के० सिंह, 02-12-95

267317 सुखदेव चन्द, 02-12-95

247662 एम० सी० राय, 02-12-95

270100 चमेरो शान मुख्वा दास, 0212-95

269818 के० के० वर्मा, 02-12-95

270004 एस० एम० बाम, 02-12-95

264063 आर० बी० सिंह, 04-12-95

264133 सी० सिंह, 01-02-96

264110 आर० एन० राम, 1-2-96

264130 आर० एम० रावत, 1-2-96

269125 आई० सिंह, 1-2-96

270024 डी० एम० गुप्ता, 1-2-96

270217 डी० आर० शर्मा, 1-2-96

264184 एल० बंशराज, 1-2-96

264272 एम० एम० भाटिया, 1-2-96

255354 जी० सिंह, 1-2-96

264186 एस० एन० कुंवर, 1-2-96

247520 ए० पी० चौहान, 1-4-96

263025 ए० नाथ, 1-4-96

232770 आर० के० सिंह, 1-4-96

249028 के० सिंह, 1-4-96

246923 गगाराम तिघारी, 1-4-96

269149 के० सी० शर्मा, 1-4-96

251101 ए० पी० त्रिषेदी, 1-4-96

270086 यू० सिंह, 1-4-96

264086 बी० सिंह, 1-4-96

270467 जी० डी० पादव, 1-4-96

270360 एस० एन० राम, 2-7-96

270330 पी० स्वरूप, 2-7-96

270392 रंगारज, 2-7-96

270524 एम० क्यूरानन, 2-7-96

264575 डी० एम० सिंह, 2-7-96

264632 आर० शर्मा, 2-7-96

264617 के० लाल, 2-7-96

264382 ए० एन० खान, 2-7-96

264730 एन० वासुदेवन, 2-7-96

264706 यू० बी० सिंह, 2-7-96

270696 टी० बी० कुमार, 2-7-96

270693 एम० एम० बेदी, 4-7-96

270586 जे० चान्द, 1-11-96

270518 एल० झा, 1-11-96

270698 एस० शर्मा, 1-11-96

264669 एम० सिंह 1-11-96	271515 आर ए उपाध्याय 2-7-97
270854 के० एल० सिंह 1-11-96	265450 आर सी नायर 2-7-97
270755 टी० के० चाकी 1-11-96	271462 एम पाल 2-7-97
270773 पी० एम० द्विवेदी 1-11-96	271533 के पाल 2-7-97
270965 आर० पी० चौबे 1-11-96	264630 एस पी यादव 2-7-96
270914 एम सैन 2-12-96	263535 राम लोक 1 1-8-95
270909 पी एन शमानी-2-12-96	264960 पी के वर्मा 2-12-95
265045 सेवा सिंह 2-12-96	265178 बी पी सिंह 4-2-97
270961 एन एम कुमारी 2-12-96	270912 आर ए शर्मा 1-11-95
264964 आर पी सिंह 2-12-96	251552 राधा मोहन पारिक 2-7-97
271000 पी के सैन 2-12-96	प्लाइवट इंजीनियर
265063 आर सिंह 2-12-96	668596 के एम दिल्ली 2-8-97
265116 मोहन राम 2-2-97	660869 एच एन झा 2-8-97
265092 एम राय 2-2-97	661517 पी एन जॉर्ज 2-8-97
265051 एन सिंह 2-2-97	662625 के सुरेन्द्रन 11-8-97
265059 एच सिंह 2-2-97	662568 ए बालासुब्रह्मनयम 6-9-97
265119 ओ पी गोयल 2-2-97	666824 जी के निश्वा 1-6-98
271057 जय भगवान 2-2-97	660652 शिवकुमार 1-6-98
247589 लासवर सहारिया 1-4-97	662437 डी बी रेड्डी 1-6-98
251627 बी चतुर्वेदी 1-4-97	669004 श्री हरशन 1-6-98
269427 एम एम अली 1-4-97	प्लाइवट गनर
270026 एन के त्रिपाठी 1-4-97	292068 के रणसीकान्त 1-11-98
270282 जी दुबे 1-4-97	292753 बी आर त्रिपाठी 1-11-98
270231 बी आर वर्मा 1-4-97	293538 डी निवारी 1-11-98
264546 आर जी सिंह 1-4-97	292077 एन मधावन 1-11-98
246977 एच एस मेहटन 1-4-97	292164 आरिं सिंह 1-11-98
270855 पी के गुप्ता 1-4-97	642265 आर के सिंह 1-11-98
271113 पी डी डबराल 1-4-97	293899 एम बी यादव 1-11-98
271115 एन सिंह 1-6-97	292859 एन लोको 1-11-98
265174 आर एम वर्मा 1-6-97	293176 पी आर चौधरी 1-11-98
271130 के मत्यालारायणा 1-6-97	293775 अरविन्द कुमार 1-11-98
271258 ए के सिन्हा 1-6-97	643653 रामाचन्द्रन 1-11-98
265357 आर कुमार 1-6-97	642807 सुब्रह्मनयम 1-11-98
271316 पी सी पटनायक 1-6-97	292603 राजेन्द्र 1-11-98
270128 आर के लाम्बा 2-7-97	294413 एम सिंह 1-11-98
249735 के ए सिद्दीकी 2-7-97	643672 एम एम सिंह 1-11-98
271499 ए एम रावन 2-7-97	642876 एम सिंह 1-11-98
265532 मनापर सिंह 2-7-97	

644519 एम पेहमेल 1-11-98

610079 राजाप्पन 1-11-98

293808 एस एम नायर 1-11-98

## फ्लाइंग सिगनल

674086 वाई पी सिंह 2-8-97

## इंस्ट्रुमेंट फिटर

239474 के सी कंचन 3-3-96

254274 एस सिंह 5-3-96

255680 ए कुमार 5-3-96

280418 भगत राम मल्होत्रा 2-7-96

280591 एल सी शर्मा 2-7-96

281824 ओ गुरिया 3-5-97

255366 एम के बामू 3-5-97

281598 कैलाशनाथ 3-5-97

281654 एस के सहगल 3-5-97

281697 एन ए भाधन 3-5-97

281733 पी कुट्टी 3-5-97

281781 सी टी गोपीनाथन 3-5-97

252211 डी एस शर्मा 3-1-96

253794 एस के नानिक 3-3-96

## रेडार फिटर

650869 पी सी मैदो 2-4-98

620112 आर तिवारी 2-12-97

620882 आर एस पाण्डेय 2-12-97

620022 एस डी शर्मा 2-12-97

620020 हरीशा राम मिश्रा 2-12-97

618126 के आर कुलकर्णी 2-12-97

617249 आर के सिंह 2-12-97

275211 जी जी मिश्रा 2-12-97

295412 आर सी सिंह 2-12-97

617692 एन आर सिंह 2-12-97

618617 एस के शर्मा 2-8-96

611031 बी पी यादव 3-12-96

617212 टी एम नागावसाई 2-12-97

620707 डी पी राय 2-12-97

616448 एन आर चक्रवर्ती 1-8-98

620615 एस आर बी सिंह 1-8-98

620749 बी सिंह 1-8-98

619893 वाई डी त्यागी 1-8-98

621486 केशर सिंह बिष्ट 1-8-98

620747 एस जी चावन 1-8-98

634988 एस बी सिंह 1-8-98

620302 डी पी सिंह 1-8-98

616482 वी एम राय 1-8-98

620614 एस पी मलिक 1-8-98

650907 आर डी सिंह 1-8-98

620481 पी के कुलवीर 1-8-98

616987 एम एस दिल्ली 1-8-98

618839 एस ठाकुर 1-8-98

635176 के आर चौधरी 1-8-98

650932 बी पी चौहान 1-8-98

617230 एस एन चौधरी 1-8-98

256808 इन्द्रा कुमार सचन 1-8-98

620966 आर एम वहिया 1-8-98

635011 बी एस अहनावत 1-8-98

619652 एस के नायक 3-8-98

620051 एम कुमार 3-8-98

620480 सी पाल 3-8-98

619923 एस कुमार 3-8-98

619919 बी एन सिंह 3-8-98

261153 बी प्रसाद 3-8-98

680723 आर सिंह 16-8-98

651245 जेमशबर 2-10-98

621761 जी सिंह 2-10-98

635297 एस के राठी 2-10-98

635462 एम आर लामर 2-11-98

651318 डी सी सैनी 2-12-98

651351 एस एन प्रसाद 2-12-98

635628 के एस यादव 2-4-98

651455 जी सिंह 2-4-98

शैलियों फिटर	
290748 एस बी एस रेड्डी 3-7-95	245780 जी सी दुबे 3-12-96
290784 प्रवीण चन्द्र कालिया 5-7-95	288198 जी भिआ 3-12-96
266037 यू एन पाण्डेय 5-7-95	600432 यू एस गिह 3-12-96
290053 एस पिरामत 5-7-95	601006 एस मिह 3-12-96
237486 एस एफ त्यागी 2-9-95	266506 बी एम पटनायक 3-12-96
289616 एम जी जोर्ज 2-9-95	289367 टी एन सिंह 3-12-96
288860 बी बी यूहानन 2-9-95	289429 जी डी धीर 3-12-96
245765 पी के रामाचन्द्रन 2-9-95	600412 बलराम कुमार 3-12-96
289831 पी आर सिंह 2-9-95	600472 एम सिंह 3-12-96
289280 एम चन्दर 2-9-95	600367 एस आर नाथ 3-12-96
290244 आर बी सिंह 2-9-95	290399 एस चन्द्र 3-12-96
290646 आर पी सिंह 4-9-95	290599 मुकुन्द लाल 3-12-96
267042 आर कुमारण 2-1-96	600481 एच शंकर 3-12-96
289487 ओमप्रकाश 2-1-96	601194 बालिक 3-12-96
290274 बी कुमार 2-1-96	601222 कुलवन्त सिंह 3-12-96
268440 आर ए सिंह 2-1-96	289467 रतन लाल 3-12-96
290275 आर सिंह 2-1-96	600162 एस एस सिंह 3-12-96
266508 पी भास्कर राव 2-1-96	245900 एच सी शर्मा 3-12-96
600171 के पी बालामुब्राह्मनयम 4-1-96	600364 बी एस राजू 3-12-96
600167 एम पी बालाकृष्णन्त 4-1-96	600441 शैलेन्द्र कुमार 3-12-96
600064 आर एस पाण्डेय 4-1-96	601040 के चन्द 3-12-96
600155 विजय कुमार सिन्हा 2-3-96	600968 सी मनोहरम 3-12-96
290595 जे पी पोखरियाल 2-3-96	601038 वी के थापर 3-12-96
290780 आर एन बनर्जी 2-3-96	601023 जहान सिद्दीक 3-12-96
288179 लाल चन्द 2-3-96	290470 राम दयाल 3-12-96
289468 जे सिंह 2-3-96	290808 सी सी अधिकारी 3-12-96
290682 के के अब्राहम 2-3-96	289198 जे एस भाटी 3-12-96
288499 पी जे जॉनसन 2-3-96	600044 आर के सिंह 3-12-96
289485 सीताराम 2-3-96	601370 आर सिंह 3-12-96
266481 एडी जी अन्तर 2-3-96	601017 पी मोहनदास 3-12-96
600320 आर सी डे 2-3-96	601406 एम एन वर्मा 3-12-96
289814 एस एस एस राय 3-12-96	288558 ए एन पाण्डेय 3-12-96
290787 चरन दास 3-12-96	601446 वी के प्रसाद 3-12-96
239049 एम एम मन्डोला 3-12-96	289162 जे पी शर्मा 3-12-96
267258 ए के शर्मा 3-12-96	601415 के के जॉर्ज 4-1-97
289842 एन पी सिंह 3-12-96	600755 के एन पवितर 4-1-97
	600424 सी सुकुमारन 4-1-97

601430 एस एलनिगवन 4-1-97	600028 पी० एन० सिंह 4-1-96
600316 एन एम वासू 4-1-97	290979 पी० पी० टी० सी० पिल्लै 4-1-96
290424 आर एस यादव 4-1-97	600004 महेश कुमार शर्मा 4-1-96
601245 राज कुमार 4-1-97	290480 डी० के० चक्रवर्ती 2-3-96
601242 ए एस गिल 4-1-97	267670 मर्गू बीरा बाबू 2-3-96
601030 आर के सिंह 4-1-97	601024 डी० एस० चौहान 3-12-96
290453 एन एस पिल्लै 3-3-97	288475 आर० के० राय 3-12-96
290240 एम एम सिंह 3-3-97	600066 लालजी नाथ 3-12-96
289821 बी एल मेहता 3-3-97	289220 खेम चन्द भाटी 3-12-96
600628 ए कुमार 3-3-97	601182 एस० के० चोपड़ा 3-12-96
601656 पी सिंह 3-3-97	600729 के० एन० पाण्डेय 3-12-96
601666 रतन लाल 3-3-97	600190 जी लाल 3-3-97
601841 जे पी त्रिपाठी 3-3-97	600006 एस० सिंह 3-3-97
601862 एस पी गलानी 3-3-97	601637 एस० पी० एन० पिल्लै 3-3-97
601679 आर के सहाय 3-7-97	601974 सी० कुमारत 3-7-97
601843 एम एम शुक्ला 3-7-97	600016 राम केवल 3-7-97
288204 सी आर दास 3-7-97	600329 बी० एस० यादव 2-8-97
601736 के० बोरग 3-7-97	602188 एम० प्रसाध 2-8-97
601885 बी० सी० दास 3-7-97	600986 सोबाराम सिंह 2-8-97
601711 पी० एम० चन्द्रन 3-7-97	
601942 मदन मोहन दास 3-7-97	फोटो फिटर
601939 आर० एस० मिश्रा 3-7-97	269688 बी० पिताम्बरम 1-4-98
601934 आर० सिंह 3-7-97	वेपन फिटर
602011 आर० एस० पठानिया 3-7-97	251897 राम दरास शीबे 2-9-90
601980 जे० नागरत्नम 3-7-97	282823 एस० मंडल 2-12-96
601950 ए० ए० अम्सारी 3-7-97	271002 के० सिंह 2-12-96
289134 एस० के० दास 3-7-97	ए० डी० एस० शी०
290720 पी० सी० भागवा 3-7-97	257563 ओम प्रकाश 4-7-97
600294 के० ए० जोश 3-7-97	261634 एस० बी० त्रिपाठी 6-7-97
600178 हरीकृष्णन्त 2-8-97	257387 जे० पुरोहित 2-8-97
601039 जंगदीश सिंह 2-8-97	260745 एस० के० मल्होत्रा 2-12-97
601161 एन० सी० पिल्लै 2-8-97	262397 एम० प्रसाद 2-12-97
602218 आर० कुमार 2-8-97	256400 बी० सिंह 2-12-97
602231 डी० राम 2-8-97	262068 डी० एस० जैमवाल 2-12-97
266894 एच० एस० पाठक 2-6-93	615136 एम० सिंह 2-12-97
236485 बी० नाथ 19-7-90	615151 के० सी० कटोच 2-12-97
289820 बी० मिश्रा 2-1-96	615166 डी० के० चक्रवर्ती 4-12-97
289810 बी० के० द्विवेदी 2-1-96	262080 मिथलेश कुमार 6-7-97
	261404 पी० शर्मा 6-7-97



ए० एफ० एस० ओ०	274913 टी० एफ० ओसफ 3-10-97
262281 के० बी० इंजारवर 3-3-97	255676 टी० राम 2-12-97
267339 एम० पी० चट्टी 3-3-97	277389 एफ० एस० शेखावत 2-12-97
267439 आर० एस० यादव 2-6-97	271208 जी० एस० मठारू 2-12-97
267510 सी० घोलासिद्धजगह 2-6-97	278128 ए० ए० महाराणा 2-12-97
267533 एस० कुमार 2-6-97	278240 लक्ष्मण राम वर्मा 3-2-98
267720 पी० सदाशिवन 2-6-97	278565 डी० राम 3-2-98
267976 राम धरन 2-8-97	278702 बी० तिवारी 3-2-98
268007 आर० के० कुर्मी 2-8-97	278640 सिंह 3-2-98
268268 राजेन्द्र सिंह 2-8-97	278644 एम० सी० प्रसाद 3-2-98
268368 एस० बी० यादव 2-12-97	278382 डी० एस० खतवाल 3-2-98
268271 एम० एस० सन्धू 2-10-97	278727 करुण 3-2-98
268369 बी० आर० यादव 2-10-97	278870 बी० सिंह 2-3-98
268334 बी० प्रकाश 4-10-97	278927 जी० जे० कोली 2-3-98
268466 पी० ए० मथई 4-10-97	278726 के० एस० नायर 2-3-98
266747 एस० ए० अजीज 2-5-98	278790 एम० सिंह 4-3-98
267123 डी० के० घोष 2-5-98	278874 डी० पी० सिंह 4-3-98
267600 एम० चन्दर 2-5-98	279076 एस० सिंह 4-3-98
229645 जी० के० शर्मा 2-3-97	279046 उदयनाथ नन्दा 4-3-98
267939 बी० हरी 2-6-97	279077 के० एम० गिल 4-3-98
267944 राजू 4-6-97	279005 एस० अहर० बाण्डे 3-9-98
268117 ब्रह्म स्वरूप वत्सया 2-8-97	279216 आर० एन० सिंह 3-9-98
व्यक्त लेखा	279228 आई० डी० राम 3-9-98
252513 एम० लाल 4-9-97	259808 आर० ए० सिंह 3-9-98
258631 टी० एन० शुक्ला 4-9-97	259164 बी० एस० कुरील 3-9-98
258680 पी० के० सिंह 4-9-97	278877 राम लाल 3-9-98
258877 ए० के० चौबे 4-9-97	277393 डी० एस० राव 3-9-98
259907 जे० एस० सेनी 4-9-97	274206 के० एस० अरोरा 3-12-98
272496 मोहम्मद अली 4-9-97	252060 एम० डी० मकाईवाला 3-12-98
272748 आर० शर्मा 6-9-97	272760 एम० शर्मा 3-12-98
273767 टी० पी० सिंह 6-9-97	278956 ए० राम 3-12-98
269783 एन० सी० यादव 6-9-97	279273 आर० के० श्रीवास्तवा 3-12-98
274231 एल० राम 6-9-97	279257 एच० सिंह 3-12-98
277955 हंसराज 3-10-97	279276 जी० बी० पिल्ले 3-12-98
278249 मिश्रा 3-10-97	279483 जे० एस० वर्मा 7-12-98
278563 आर० डी० त्रिपाठी 3-10-97	व्यक्त जी डी
630014 आर० बी० शर्मा 3-10-97	273276 एम० एम० सम्पत 20-9-96
274477 डी० सिंह 3-10-97	274530 आर० एन० विवेदी 20-9-96
274809 ओ० पी० शर्मा 3-10-97	

274590 श्री० आर० दत्ता 20-9-96	277488 एस० एस० रावूल 2-7-97
274575 आर० के० नायर 20-9-96	277501 सी० पी० यादव 2-7-97
274788 डी० डी० डोगरा 22-9-96	277571 वी० एस० रेड्डी 1-8-97
274741 आर० एम० पुरुषोत्तम 24-9-96	277542 बकें चाको 1-8-97
274736 सदाशिवम 24-9-96	277708 आर० राम 1-8-97
274758 जे० बी० मिह 24-9-96	255357 एम० बनी 2-12-94
274756 आर० के० मिश्रा 24-9-96	274598 एम० एल० टंडन 2-2-98
274757 आर० ए० खान 24-9-96	274531 जी० सी० कुशवाहा 20-9-96
274867 जे० सिंह 26-9-96	274084 आर० एन० शर्मा 20-9-96
274860 आर० पी० मिह 26-6-96	274570 वी० डी० शर्मा 20-9-96
274855 टी० एम० राजू 26-9-96	274762 एम० सी० बोहरा 24-9-96
274928 करम सिंह सरोज 26-9-96	274864 आर० एन० मिह 26-9-96
274950 बी० पी० तिवारी 1-1-97	274763 जे० प्रभाष 26-9-96
274926 धरमजीत 1-1-97	277255 धर्म मिह 9-1-97
274927 आर० पाल 1-1-97	277502 एम० सी० मिह 1-8-97
274994 एस० पी० जखमोला 1-1-97	258128 डी० एम० चौहान 2-3-95
274997 ओ० पी० त्रिवेदी 1-1-97	253973 हरीश चन्द 20-9-96
277026 एस० पी० अग्रवाल 1-1-97	255633 आर० एम० मोर्या 1-1-97
277230 लालजी प्रमाद 9-1-97	255781 पो० जे० जोर्ज 9-1-97
277037 टी० वी० जोसफ 9-1-97	277254 आर० सी० सूद 2-6-97
277323 आर० मिह 9-1-97	259567 डी० सी० श्रीवास्तव 2-6-97
277256 डी० एम० कटारिया 9-1-97	277704 बलवीर मिह 2-10-97
277231 आर० ए० राम 2-6-97	277794 एम० के० मिह 2-10-92
274893 आर० पी० कथूरिया 2-6-97	277791 अवधराज मिह 2-10-97
277261 आर० पी० बजाज 2-6-97	277837 वार्ड० पी० मिह 2-10-97
277310 जी० एम० यादव 2-6-97	277841 एम० राम० 2-10-97
277300 पी० बालाचन्द्रन 2-6-97	277838 रामजी वर्मा 2-10-97
277341 राम किशोर 2-6-97	277848 मुहम्मद 2-10-97
277375 के० आर० नायर 2-6-97	277880 एम० आर० मिह 2-10-97
277417 राम सूरत 2-6-97	277975 ए० के० शर्मा 2-10-97
277392 वी० पी० मिह 2-6-97	278006 मोहन लाल 2-10-97
277400 जे० नाथ 2-6-97	278029 डी० के० गांगूली 2-10-97
277428 आर० डी० ठाकुर 2-6-97	252320 के० एम० ठाकुर 21-12-97
277432 वी० एन० स्वामी 2-6-97	274250 वी० पी० मिह 2-12-97
277443 जीतराम 2-6-97	278039 एम० जैकब 2-12-97
277434 जी० सी० नायडू 2-7-97	274250 आर० एन० मिह 2-12-97
277458 आर० ए० खान 2-7-97	

274589 एम० चक्रवर्ती 2-12-97  
 277309 एम० आर० तिवारी 2-12-97  
 278189 आर० एम० परिहार 2-12-97  
 278083 साबूल 2-12-97  
 280131 कन्त 2-12-97  
 278186 एम० बी० सिंह 2-1-98  
 278180 एम० सी० दिक्षित 2-1-98  
 278183 कृष्णा औतार 2-1-98  
 278107 के० एम० मुकुन्दन 2-1-98  
 278413 ए० एस० परिया 2-1-98  
 278412 बी० सी० कायल 2-1-98  
 274600 मयूय जोन 22-9-96  
 278333 एच० सिंह 2-1-98  
 उपस्कर सहायक  
 272621 एम राजाप्पन 2-10-95  
 272724 के० सी० बालाकृष्णन् 2-7-96  
 272934 भीम सिंह 2-12-96  
 273002 हरमेश सिंह मान 2-12-96  
 274257 जमील अख्तर सय्यद 2-6-97  
 274230 जी० सी० राय 2-6-97  
 274194 एस० एन० शर्मा 2-6-97  
 274237 एम० सिंह 2-6-97  
 274180 आर० के० शर्मा 2-6-97  
 272984 बाबू राम यादव 2-6-97  
 272932 सतवंत सिंह 2-7-97  
 259176 के० एम० सिंह 2-7-97  
 272464 एन० वी० मूलये 2-7-97  
 273523 अन्थोनी जूलियस केशर 2-7-97  
 273987 एस० के० सिंह 2-7-97  
 274472 टी० एम० कुन्जु 2-7-97  
 267712 एस० एस० सोढी 2-7-97  
 274539 के० राम 2-7-92  
 630009 वी० एन० श्रीवास्तवा 2-7-97  
 272641 एस० पी० बिनौय 2-10-95  
 273272 एस० एन० राय 4-12-96  
 258148 शान्ति रंजन बोस 8-12-96  
 259205 एम० एल० श्रीवास्तवा 8-12-96  
 272134 आर० यादव 10-12-96

274099 ए० के० सुकुमारन 1-5-97  
 274177 ब्रह्मा नन्द 2-6-97  
 274255 सी० राम 1-6-97  
 266031 वी० एस० धनकर 2-7-97  
 275398 वी० के० नायक 2-7-97  
 274165 एम० बुद्धीराम 2-6-97  
 255402 वी० के० सरकार 2-7-97

## चिकित्सा सहायक

241754 ओम प्रकाश जाट 2-2-97  
 241737 एच० चन्द 2-2-97  
 241734 एस० सी० अवस्थी 2-2-97  
 241704 के० बेलूस्वामी 2-2-97  
 241743 ए० आर० खान 2-2-97  
 241744 आर० एम० सिंह 2-2-97  
 241731 आर्ही० बी० बिपारी 2-2-97  
 241742 एस० डी० सिंह 2-2-97  
 241757 एम० एस० शेखावत 2-6-97  
 241756 आर० आर० चौहान 2-6-97  
 241771 आर० सी० लाखुन्डी 2-6-97  
 241774 बी० राम 2-6-97  
 241785 जी० पी० बागुल 2-8-97  
 241778 पी० डी० सिंह 2-8-97  
 241803 ए० सिंह 2-8-97  
 241775 एस० मिश्रा 2-8-97  
 241780 डी० मिश्रा 2-8-97  
 241788 सी० एम० ब्रह्मन 2-8-97  
 241777 गोपाल सिंह 2-8-97  
 241829 एस० सी० कोटनाला 2-8-97  
 241816 पी० डी० यादव 2-10-97  
 241828 आर० ए० कुशवाहा 2-10-97  
 241844 विष्णु राम 2-10-97  
 241841 एम० एन० राय 2-10-97  
 241849 खुरशीद राम 2-10-97  
 241839 आर० सी० सिंह 2-10-97  
 241703 वी० सुब्रह्मानयन 2-12-97  
 241843 एल० पी० गुप्ता 2-12-97

241854 ए० के० वत्सा 2-12-97	600758 सी० एस० काहल 1-8-97
241702 बी० विजयन 2-12-96	600625 एस० बी० सिंह 1-8-97
मैट सहायक	601667 पी० हन्सू० शर्मा 1-11-97
245845 आर० सी० भाटिया 2-11-96	601410 जे० सिंह 1-11-97
272019 गोविन्द सिंह 2-7-97	266012 डी० सिंह 1-11-97
243363 टी० बी० गवालनी 2-7-97	601034 एस० सी० मिश्रा 1-11-97
245607 एस० एन० सिंह 1-1-97	288705 दुबे 1-11-97
266508 आर० मिश्रा 1-11-97	289811 श्रीनिवास 2-12-97
230496 एन० सी० शर्मा 1-11-97	289648 ए० पी० लाल 2-12-97
267252 एस० सुकुमारन 1-11-97	289658 बी० के० सिंह 2-12-97
267417 आर० एन० झा 1-11-97	290036 एस० एम० जैसवाल 2-12-97
289649 बी० एम० नायर 2-2-98	288399 एस० पी० सिंह 1-8-95
266975 बी० सिंह 1-12-96	290770 आर० सिंह 2-12-95
267158 अनुपम लाल सिंह 2-5-97	290526 आर० के० बाजपेयी 2-5-97
267437 के० लक्ष्मण 2-2-98	600363 सय्यद ईमाम 1-8-97
रेडियो टेक	601174 के० के० झा 1-11-97
267276 राम० सुरेश तिवारी 1-11-96	आर० टी० ओ०
268895 एन० एन० बाली 1-11-96	267733 पी० सी० पाटिल 8-2-95
289675 सी० के० सिंह 3-11-96	267785 पो० एम० सिंह 12-2-95
289780 एन० एस० ठाकुर 3-11-96	268566 आर० श्याम 5-12-96
289627 आर० सिंह 3-11-96	268586 रघु श्याम 7-12-96
289599 बी० एन० सिंह 3-11-96	268594 सा० पो० भास्करन 7-12-96
290656 टी० पी० फिलिप 2-12-96	268691 रामनाथ 7-12-96
290605 बी० एस० मान 2-12-96	268807 बी० सिंह 7-12-96
290299 उपेन्द्रा प्रसाद सिंह 2-12-96	268940 आर० एम० पाण्डेय 7-12-96
600099 जे० राय 2-12-96	268193 एस० वी० सिंह 7-12-96
600015 आर० के० यादव 1-2-97	268590 एस० डी० पिल्लै 7-12-96
290992 नाथू राम 1-2-97	268950 विशम्बरम नाथ 9-12-96
268572 एन० एम० प्रसाद 3-3-97	268957 आर० चन्द 9-12-96
288850 आर० एस० अग्रवाल 3-2-97	268959 जी० मुरलीधर 9-12-96
287494 एम० बी० महाजन 2-5-97	268963 जी० परमेश्वरम 9-12-96
289192 जे० पाण्डेय 2-5-97	268967 जूगराज सिंह 9-12-96
289750 आर० एम० राय 2-5-97	269000 ए० सी० बग्गा 2-6-97
600713 बाई० एन० पाण्डेय 4-5-97	268973 राधाकृष्णन् 2-6-97
600650 पी० सी० जवारिया 4-5-97	282030 आई० सी० चीहान 2-6-97
600645 के० उमापथी 1-8-97	282077 टी० पी० यादव 2-6-97
600587 बी० के० मिश्रा 1-8-97	288338 के० एन० शर्मा 3-7-97

288329	जी एस चावला	3-7-97	के सेठ (19923), एन ऐलेगजेंडर (19924), एन चन्द्रा (19925),
282580	बी पी सहाम	3-7-97	एन सिवा कुमार (19926), जे बी राजे, जे बी (19928), आर रंजन (19929),
288747	दिलीप पाल	2-8-97	एस मिशरा (19930), बी सिंह (19931), ए शुक्ला (19932),
288662	एम सालीमुद्दीनकम	2-8-97	एम पाण्डा (19933),--14 जनवरी 2000 ।
288763	डी के सिंह	3-11-97	परिभारिकी शाखा
289087	जी एन सिंह	3-11-97	फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में
288695	चक्रवर्ती	3-11-97	बी एस पंकज (19934), एन किशोर (19935), ए पी रंगनाथन (19936),
289028	एस एन शकुर एम ई डब्ल्यू	3-11-97	एस के मिश्रा (19937), के श्रीनिवासन (19938), पी के नायर (19939),
263127	यादव	1-12-96	आर के श्री वास्तवा (19940), श्री बिनोय (19941), एस एम दास (19942),
263241	एस सिंह	1-5-97	पी आर्षी जादव (19943), एम बालाकृष्णन (19944), एम चौपडा (19945),
263680	ए एल एन राव	1-5-97	ए श्रीवास्तव (19646), ए राठौर (19947), ए के रिनिक (19948),
264752	एम सिंह	1-11-97	वी एस कामथ (20125)--14 जनवरी 2000 ।
	आई ए एक (पी)		वैमानिक शाखा इंजिनियर (मैकेनिकल)
276246	आर एन मिश्रा कैप्टेन सहायक	2-1-95	फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में
254830	एस सिंह	2-12-96	एस श्रीनिवासन (20240), आर के खजान्ची 20238, एम प्रभु (20225), एच जैसवाल (20236), के सुधीर (20235), के० ए० एस० अहमद (20227), बी एस श्रीधर (20224), उमेश पाला (20223), पी माथुर (20239), आर पी हुबे (20237), एच के गोरे (20371), ए भट्टाचार्या (20222), एम डेकुलियर (20363), पी एस कनन (20369), एम कटारिया (20378), एम मुहगन (20228), बी हरीश (20370), एस बाला कुमार (20373), एम अग्रवाल (20231), आशीष (20229), संजय श्रीकान्त (20379), बी के श्रीवास्तव (20364), आर्षी देनाथ (20226), विश्वेक नारायण (20380), आर सी रस्तोगी (20381), एच कुमार (20388), एम पी शिशोलकर (20372), ए श्री वास्तवा (20366), एन पी जलहरे (20365), डी एम शेखावत (20230), बी एस कोलाकपदम (20389), जी एन भाटिया (20374), पी बन्तुगोपाल (20223), एस एन राव (20383), आर के रामामूर्ति (20368), पी विजयन (20390), एल पेरेरिया (20362), आर्षी चतुर्वेदी (20221), एम बी चक्रधर (20220), यू पी राव (20385), बिनांक 03 सितम्बर 1999 से ।
259214	जी राम	2-5-96	
272224	के लाल	4-12-96	
258411	जे सी मोहन	4-4-97	
254831	पी गोपालकृष्णन्त	4-4-97	
261605	एम सरकार	2-11-97	
272852	राम निवास सिंगल	2-11-97	
272539	बी चौधरी	1-2-98	
272030	तथी राम सैनी म्युजिशियन	1-2-98	
287362	जे कुमार	1-11-97	
267367	एम सिंह	2-6-97	
287370	आर सी रज्जाक	1-11-97	

कुल : 687 (छः मी मतासी)

जी श्रीनिवासन, डेस्क अफसर

सं० 485, तारीख 18 जुलाई 2001--राष्ट्रपति, निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं ।

भारतीय वायु सेना

प्रशासन शाखा

फ्लाइंट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

ए सुधास (19920), बी बी शारदा (19921), आर अर्मा (19922),

## बैमानिक इंजिनियर शाखा (इलविट्कन)

फ्लाइट लेफ्टिनेंट में स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में

फ्लाइट लेफ्टिनेंट टी अमन्ता (20809), डी सिंह (20255), एम सोमसुन्दर (20111), ए एन वाधरे (20811), एम मन्मता (20279), जो डी श्रीवास्तवा (20280), वी के पाण्डेय (20289), संदीप किशोर (20387), एम राव (20277), एम राजगोपाल (20295), एम पाठक (20266), आनन्द कुमार (20298), ए एस गुलाटी (20359), एम सुन्दर राजन (20305), पी पी मिश्रा (20264), एम सी एम गियार (20306), एच जे सिंह (20253), डी विश्वा (20245), ए प्रसाद (20297), ए के दसा (20257), ए के सिंह (20268), ए पी कानन (20304), एम कानगौनकर (20290), वी एम राज (20261), ए बालापुरकर (20296), वी पी महाजन (20310), आर भान (20256), मनीष कुमार (20241), पी एम गंगोपाध्याय (20284), एम समूल (20258), एम एन के रामामूर्ति (20248), डी मेनगुप्ता (20246), वी सिंह (20300), वी के ए के टन्डालम (20275), पी के सेन (20243), सी ए हिरेमति (20276), एम के तों (20391), एम पी कर्ककिया (20377), एन जोष (20293), एम सुन्दर (20312), ए दयवारी (20288), एमसीपी रवनामा (20286), के एस एस प्रभा (20247), ए के सिल (20270), आर शर्मा (20281), जो डी माटे (20267);

पी सिंह (20299), एम झावर (20376), वी काटा (20302), वी एम अग्रवाल (20274), जी रमन (20269), आर सिंह (20367), आर कपूर (20285), जे सिंह (20263), आर तिवारी (20242), सी के मेथुनाथ (20273), एम के पार्स (20249), विवेक सिंह (20287), वी वी जे राव (20271), सी नागनाथन (20309), एम विह (20301), ए तिवारी (20252), ए गौतम (20308), डी नपकर (20250), सी हाडागर्ज (20254), एन एम धनगज (20262), पी आर ए प्रकाश (20307), एम एम चीमा (20361), एम कार्नादास (20357), एच सिंह (20303), दिनांक 03 दिसम्बर 1999 से

एम वां कुटे  
स्क्वाड्रन लीडर  
ए डी पी ओ 3 (डी)

सं० 486, दिनांक 18 जुलाई 2001—गवट्टुपति, निम्न-  
लिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

भारतीय वायु सेना  
उड़ान पायलट शाखा

फ्लाइट लेफ्टिनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में  
आर जी के कपूर (18253), जी के माधवीया (18261), 07 जून 1997 से।

## फ्लाइट आफिसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में

एम सी मुथाना (23137), एन शर्मा (23138), वी एम रमिन्द्र (23139), के पी सिंह (23140), वी एम साबेकर (23141) वी एम ठांडा (23142)—03 दिसम्बर, 1999।

## राजपत्र अधिसूचना का मसौदा

## प्रशासन शाखा

## फ्लाइट आफिसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में

दिलीप शंकर (23048), एल थामस (23049), टी एम टावी (23050), के के भादुडी (23051), आर एम बिश्ट (23052), अरुण तपार (23053), के शर्मा (23054), ए शताचार्या (23055) ए वी प्रान्जये (23056), जी श्री तिवार (23057), के सी एन राव (23058), 18 जून, 1999।

## उड़ान पायलट शाखा

## फ्लाइट आफिसर की फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक में

फ्लाइट आफिसर वी एस सेखन (23161), डी सिंह (20163), एन ब्रह्मावार (23164), डी के शाह (23165), पी मित्तल (23166), आई टी हिन्दवान (23167), ए आर गिरी (23168), एम यादव (23169), एन शुक्ला (23170), आर पाण्डे (23171), ए पी सिंह (23172), पी जोसफ (23173), एम मेहता (23174), के सिंह (23175), के वाई ए बेग (23176), ए आर ठाकुर (23177), ए एस पन्तु (23178), ए हुसैन (23179), मनोज कुमार (23180), एम राव (23181), एन दोपक (23182), वी एन मनीष (23183), एम सिंह (23184), आर लिजानी (23185), एम चन्दा (23186), एन के चौबे (23187), एम कुमार (23188), आर सा नायर (23189), आर वर्मा (23190), वी एम भन्डाना (23191), एन एम रन्तु (23192), नितेन बालडे (23193), आर त्यागी (23194), पी हिमांशु (23195), एम मेठ (23196), डी एस देशपाण्डे (23197), एम के ए पिल्ले (23198), आर मिश्रा (23199), वी एम निजेजर (23200), जी एस टंग (23201), एन अय्यंकर (23202), एन सिंह (23204), एम मेहता (23203), अमिन (23205), ए पी एन अग्रवाल (23207), ए सुर (23208), एन शर्मा (23209), ए जे मेथ्यू (23210), वू एन राजा (23211), एन मन्डोवा (23212), ए पंत (23213), ए के चौधरी (23214)

एम के अस्थाना (23216), जी जी नायर (23217), ए एम खेवकार (23218), पी राजेन्द्रा (23219), एम रेड्डी (23006)—17 दिसम्बर, 1999 से।

**फ्लाइट नेविगेटर शाखा**

फ्लाइट अफसर की फ्लाइट नेविगेटर रैंक से

फ्लाइट आफिसर जे डी मिश्रा (23220), जे पी यादव (23221), आई मलिक (23222), डी के लाम्बा (23224), जी कुमार (23225), पी सी दास (23226), एस के महापात्रा (23227), की आर मनोहर (23228) ए श्री वास्तवा (23229), एस के गौड़ (23230), पी त्रिपाठी (23231), एम सेठी (23232), ए एम के शर्मा (23233), आर एन कटोच (23234), पी एन आर कृष्णा (23235)---17 दिसम्बर 1994 से।

ए मेना, स्कवाड्रन लीडर  
ए डी पी ओ 3 (डी)

(सेना मुख्यालय)

सं० 487 दिनांक 17 जुलाई 2001--राष्ट्रपति, सहर्ष ले० ज० आर जे मोरडकाय (आई सी 12543) सेवा निवृत्त को 28 फरवरी 2001 (अपराह्न) से इंजीनियर्स कोर के कर्नल कमान्डेन्ट के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

सं०--राष्ट्रपति, सहर्ष ले० ज० ए एन मिन्हा, पीवीएसएम, एवीएसएम (आई सी 11870) सेवा निवृत्त को 31 अक्टूबर 2001 (अपराह्न) से इंजीनियर्स कोर के कर्नल कमान्डेन्ट के पद से मुक्त होने की अनुमति देते हैं।

एन० मारियाप्पन,  
एम सी एस ओ एम एम (एक्स)

सेना शाखा

सं० 488, दिनांक 16 जुलाई 2001--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों/अधिकारों को अधिवृत्तता आय प्रदान करने पर सेना से निवृत्त होने को अनुमति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

1. मेजर जनरल एन० आर० राहा० बी० एम० एम० (एम० आर०-2331 ए) ए० एम० सी०/पीसी-31-01-2001 (अपराह्न)
2. ब्रिगेडियर पी० आर० सैन (एम आर-2359 ए) ए० एम० सी/पीसी-31-01-2001 (अपराह्न)
3. ब्रिगेडियर एच० सी० शर्मा (एम आर-2727 के) ए० एम० सी/पीसी-31-01-2001 (अपराह्न)
4. ब्रिगेडियर आर० पी० मेहता (एम आर-2553 पी) ए० एम० सी/पी सी-31-01-2001 (अपराह्न)
5. ब्रिगेडियर एम० एम० सिंह (एम आर-2729 पी) ए० एम० सी/पीसी-31-01-2001 (अपराह्न)

6. ब्रिगेडियर पी० एन० अरोडा (एम आर-2446 ए) ए एम सी/पीसी--31-03-2001 (अपराह्न)
7. कर्नल आर० के० गुप्ता (एम आर-2872 एफ) ए० एम सी/पी सी--31-01-2001 (अपराह्न)
8. कर्नल ए० आर० त्रिसवार (एम आर-2930 ए) ए० एम सी/पी सी--28-02-2001 (अपराह्न)
9. कर्नल ए० के० दास (एम आर-2552 पी) 31-03-2001 (अपराह्न)
10. कर्नल जे० एम० वर्मा (एम आर-2532 पी) ए० एम सी/पी सी--31-03-2001 (अपराह्न)
11. ले कर्नल बी० टी० के० रेड्डी (एम आर-3815 एम) ए एम सी/पी सी-31-01-2001 (अपराह्न)
12. ले कर्नल के० वी० पी० सिंह (एम आर-3311 वे) ए० एम सी/पी सी-31-01-2001 (अपराह्न)
13. ले कर्नल आर० सी० शर्मा (एम आर 2894 ए) ए० एम सी/पी सी--31-01-2001 (अपराह्न)
14. ले कर्नल के० जयराम (एम आर-2570 पी) ए० एम सी/पी सी-31-01-2001 (अपराह्न)
15. ले कर्नल आर० एम० विरावन (एम आर-3744 डब्ल्यू) ए० एम सी/पी सी-28-02-2001 (अपराह्न)
16. ले कर्नल ए० सी० पालटा (एम आर-2936 एफ) ए० एम सी/पीसी-31-03-2001 (अपराह्न)।

मेजर जनरल जे० आर० भारद्वाज  
अपर महानिदेशक

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सं० 489, दिनांक 16 जुलाई 2001--निम्नलिखित अधिकारियों को जो एम द्वारा निम्नलिखित सेवा दी जाती है।

- आई पी 39146 मेजर जनरल भारद्वाज, मेक इन्फैन्ट्री  
(अ) प्रोन्नति हेतु तीन साल की सेवा का समपहरण  
(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए।

---01 दिस० 2001

- आई सी 46238 मेजर अनुराग छावड़ा, इन्फैन्ट्री  
(अ) पेंशन हेतु तीन साल की पूर्व सेना का समपहरण  
(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए।

---10 फरवरी 2001

आई सी-56750 कैप्टन पी आर दाम, इन्फैण्ट्री

- (अ) प्रोन्नति हेतु तीन साल की पूर्व सेवा का समपहरण  
(ब) पेंशन हेतु तीन साल की पूर्व सेवा का समपहरण, तथा  
(स) कड़ी भर्त्सना की जाए।

--21 नवम्बर 2000

आई सी-46833 कैप्टन विनोद कुमार, ए एस सी

- (अ) प्रोन्नति हेतु तीन साल की सेवा का समपहरण  
(ब) कड़ी भर्त्सना

--09 मार्च 2001

आई सी-36690 मेजर एच एम मुल्तानी, ए एस सी

- (अ) पेंशन हेतु छह साल की पूर्व सेवा का समपहरण  
(ब) कड़ी भर्त्सना

--9 मार्च 2001

आई सी 34237 मेजर एस० एम० स्वर्न ए० ओ० सी०

- (अ) सेवा से बर्खास्त --16 जून 2001

एस० एस० 36808 ले० जी० पी० मिह, इन्फैण्ट्री

- (अ) सेवा से बर्खास्त किया जाए

--03 अप्रैल 1999

निम्नलिखित अधिकारियों को जी० ओ० सी० पश्चिमी कमान द्वारा निम्नलिखित सजा दी जाती है :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आई० सी० 54088 कैप्टन पी० एम० नार्ईक, आर्टी

- (अ) प्रोन्नति हेतु छह माह की सेवा का समपहरण  
(ब) कड़ी भर्त्सना की जाए

--19 दिसम्बर 2000

सरयदेव राव

एस० सी० एस० ओ०

एम० एस० 8सी

## MINISTRY OF DEFENCE

No. 466, dated 13th July 2001.—The President is pleased to appoint Shri Deepak Das, ICAS (86), Deputy Secretary, Ministry of Defence as Director in the same Ministry w.e.f. 26-6-2001 (F/N) upto 31-08-2003 or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri R. C. Sharma, Section Officer, borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of June 18, 2001 until further orders.

The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Singh, Section Officer, borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Desk Officer in the same Ministry w.e.f. the forenoon of May 29, 2001 until further orders.

N. N. MATHUR  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 467, dated 18th July 2001.—The President is pleased to make following appointment :—

## TERRITORIAL ARMY COMMISSION

SS-32367 Now TA-42385 Ex Capt HRS Rana is granted Territorial Army (Infantry) commission wef 01 Nov 98 in the rank of Lt under the provisions of TA Act Rule 1948. He is also granted 09 Years 01 Month and 03 Days seniority wef 27 Sep 89 in the rank of 2/Lt for his former service in the regular Army. By virtue of ante dated seniority, he is promoted as Lt wef 27 Sep 92 and Capt

wef 27 Sep 96, under the provisions of Para 25(a) & 38(a) of TA Regs 1948 for increments and promotion purpose.

SS-34722 Now TA-42386 Ex Capt SS Brar is granted Territorial Army (Infantry) commission wef 01 Nov 98 in the rank of Lt under the provisions of TA Act Rule 1948. He is also granted 05 Years and 27 Days seniority wef 04 Oct 93 in the rank of 2/Lt for his former service in the regular Army. By virtue of ante date seniority, he is promoted as Lt wef 01 Jan 96 and Capt wef 04 Oct 2000, under the provisions of Para 25(a) and 38(a) of TA Regs 1948 for increments and promotion purpose.

B N SINGH  
Under Secy.

No. 468, dated 19 July 2001.—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76 as amended :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Flg Offi (on Prob)

(Km) Pragya Sharma, MBBS (MR-07468-W) (26043) AMC, 09 Aug 2000.

A K Garg MBBS (MR-07464-A) (26040), AMC, 09 Aug 2000

Vikram Trehan, MBBS (MR-07466-L) (26042), AMC, 09 Aug 2000.



Kumar Abhisheka, MBBS (MR-07465-H) (26041) AMC, 09 Aug 2000.

Deepanjan Dey, MBBS (MR-07481-A) (26046) AMC, 09 Aug 2000.

K B N S DOD  
Brigadier  
Dy DGAFMS(P)

Nair Bijay Gopalan Kutty, 51634-Z, SSC—4-1-99.

Kumar Prasad AK 51635-A, SSC—4-1-99.

KUMAR PARITOSH  
Commander  
DDMPR (R&R-II)

No. 469, dated 18th July 2001.—The President is pleased to make the following appointment (Direct Permanent Commission) under AI 37/78 as amended vide AI 4/96 :—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)

To be Lieut (On Probation)

Bharat Khanna (DR-10522-K)—22-5-2001 (F/N). BDS (GND Uni Amritsar).

Guruprasada (DR-10519-K)—13-4-2001 (F/N). BDS (Bangalore).

Sunil Bennur (DR-10521-F)—21-5-2001 (F/N). BDS (Karnataka).

The President is pleased to make the following appointment (SSC) under AI 15/79 as amended vide AI 4/96, 5/96 :—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lieut (On Probation)

Srihari A (DS-12034-A)—2-3-2001 (F/N) BDS (Bangalore).

R. K. SETHI  
Brig  
Dy. DGDS

No. 470, dated 17 July 2001.—The President is pleased to appoint Lt Gen Hari Uniyal (IC-13971) as Colonel Commandant of the Corps of Engineers with effect from 01 Feb 2001 (F/N).

The President is pleased to appoint Maj Gen JDS Bedi (IC-15084) as Colonel Commandant of the Corps of Engineers w.e.f. 10 April 2001 (F/N).

The President is pleased to appoint Maj Gen Madhav Arren (IC-15025) as Colonel Commandant of the Corps of Engineers w.e.f. 10 Apr 2001 (F/N).

N MARIAPPAN  
SCSO  
MS(X)

NAVY BRANCH

No. 471, dated 16 July 2001.—The President is pleased to make the following appointments in the Electrical Branch of the Indian Navy under direct entry scheme under the Ministry of Defence letter No. MF/1822/DES/228/US(P)/D-(N II) dated 02 February 2001 from the date shown against their names :—

To be Sub Lt (On Probation)

Direct Entry Scheme (Electrical Branch)

Name, Personal Number, Type of Commission & Date of Commission

Prasad Pavoo NS, 51633-Y, SSC—4-1-99.

4—194 GI/2001

No. 472, dated 13 July 2001.—The President is pleased to extend the period of appointment of Shri Rajiv Gauba, IAS (JH:82) as Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Jaswant Singh) for a period of three months beyond 18-6-2001 upto 18-9-2001 or till he is relieved by the Govt. of India to take up his new assignment, whichever is earlier.

N. N. MATHUR, Under Secy.

No. 473, dated 13 July 2001.—On completion of tenure/carned leave granted to her, the services of Smt. Smita Chugh, IAS (JH:80), Joint Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Govt. of Jharkhand w.e.f. 11-7-2001 (F/N).

N. N. MATHUR, Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 474, dated 17 July 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
ARMY SERVICE CORPS  
(MECHANICAL TRANSPORT)

To be Subedar Major (MT)

Subedar Pothu Reddy Raghava Reddy (JC-660441X)—07 Apr 2001/01 Apr 2001\*.

Subedar Velayudhan Purushothaman (JC-660468P)—01 May 2001.

Subedar Ramesh Chand (JC-660470M)—01 May 2001.

Subedar Budh Ram (JC-660476N)—01 May 2001.

\* (Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and alices).

SUPPLY

To be Subedar Major : Clerk (GD/SD)

Subedar Santokh Singh (JC-209857X)—01 Aug 2000.

Subedar A Sambasiva Chetty (JC-209873W)—01 Aug 2000.

Subedar Nand Kishore Verma (JC-209906W)—01 Aug 2000.

Subedar Bikram Singh (JC-209908F)—01 Oct 2000.

Subedar Nanda Kumar Barman (JC-214668Y)—01 Oct 2000.

Subedar Nitya Lal Ghosh (JC-214695H)—01 Aug 2000.

Subedar Yogendra Sah (JC-221587F)—01 Jan 2001.

Subedar A V R. (JC-205002Y)—01 Feb 2001.

Subedar Bhima Charan Sahoo (JC-221576F)—06 Feb 2001.\*

\* (Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2001 without effect on pay and alices).

Subedar Kuldeep Singh (JC-640032H)—01 Mar 2001.

Subedar Ramesh Chand (JC-640035W)—01 Mar 2001.

- Subedar Lajja Ram Sharma (JC-640085F)—01 Mar 2000
- Subedar Gangadharan Nair V (JC-640091P)—01 Mar 2001.
- Subedar G Selvanathan (JC-640096N)—01 Mar 2001.
- Subedar Raj Singh (JC-640108X)—01 Apr 2001.
- Subedar Dalip Kumar Shil (JC-640274L)—01 Apr 2001.
- Subedar Narendra Kumar (JC-640278F)—01 Apr 2001.
- Subedar Ram Naresh Prasad (JC-640285X)—01 Apr 2001.
- Subedar Clerk (G) SD)
- Naib Subedar Pina Ram Mahotra (JC-640996X)—18 May 2000\*\*.
- \*\* (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2000 without effect on pay and allces)
- Naib Subedar Govind Singh Khatota (JC-640997A)—01 May 2000.
- Naib Subedar Om Prakash (JC-640999L)—30 Jun 2000\*\*\*.
- \*\*\* (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Munshi Ram (JC-641000M)—01 Jun 2000.
- Naib Subedar Gagan Bihari Parida (JC-641170W)—01 Jun 2000.
- Naib Subedar Niranjan Dash (JC-641001P)—01 Jun 2000.
- Naib Subedar Jaya Krishna Sahoo (JC-641002Y)—13 Nov 2000@.
- @ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2000 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Bhawan Singh Adhikari (JC-641003A)—01 Jul 2000.
- Naib Subedar Suvash Chandra Mallick (JC-641004H)—01 Jul 2000.
- Naib Subedar Binay Kumar Sinha (JC-641005L) 01 Jul 2000.
- Naib Subedar Sampuran Chand Bhardwaj (JC-641006N)—01 Aug 2000.
- Naib Subedar Md Tamiz Ahmed Laskar (JC-641007W)—17 Sep 2000@@.
- Naib Subedar Mohan Behara (JC-641008Y)—19 Aug 2000@@@.
- @@@ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Bhoodev Singh Rathore (JC-640009F), 18 Aug 2000.&
- Naib Subedar Handva Nand Yadav (JC-641171Y), 21 Aug 2000.%
- % (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces)
- Naib Subedar Jaivir Singh (JC-641172F), 01 Aug 2000.
- Naib Subedar Nazrul Islam (JC-641011Y) 18 Aug 2000.&
- & (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces)
- Naib Subedar Kuldip Chand Katoch (JC-641012H), 01 Aug 2000.
- Naib Subedar Subhash Chand (JC-641014M) 01 Sep 2000.
- Naib Subedar Tejbir Singh (JC-641015V), 01 Sep 2000.
- Naib Subedar Ram Krishna (JC-641017A), 01 Sep 2000.
- Naib Subedar Jaocendra Singh Bisht (JC-641018H), 01 Sep 2000.
- Naib Subedar Kaliappan Muchuveerappan (JC-641175P) 21 Dec 2000.&&
- Naib Subedar Subrama Dutta (JC-641176X), 13 Oct 2000.&&
- Naib Subedar Satva Kumar Singh (JC-641178H), 24 Oct 2000.&&
- Naib Subedar Om Prakash Shrivastava (JC-641179I) 03 Oct 2000.&&
- && (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces)
- Naib Subedar Vakil Singh (JC-641180A) 01 Sep 2000.
- Naib Subedar Jijy Lal (JC-641181H), 01 Sep 2000.
- Naib Subedar Ganesh Dutt (JC-641015P), 01 Oct 2000.&&&
- &&& (Granted seniority in the rank of Sub wef 04 Sep 2000 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Madan Singh (JC-641019L), 01 Oct 2000.
- Naib Subedar P S Mohan (JC-641185Y), 01 Oct 2000.
- Naib Subedar Sathya Prakash Vasishth (JC-641186F), 03 Oct 2000.\$
- \$(Granted seniority in the rank of wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Santosh Kumar (JC-640924J), 01 Oct 2000 \$\$
- Naib Subedar Gairwad Sampat Ram Rao (JC-640928K), 14 Nov 2000. \$\$
- \$\$ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 1999 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Arun Sarkar (JC-641188M), 13 Dec 2000. \$\$\$
- \$\$\$ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).
- Naib Subedar Hemant Singh (JC-641189P), 01 Nov 2000.
- Naib Subedar Muralcedharan Pillai (JC-641190K), 01 Dec 2001.
- Naib Subedar Parthasarathy S (JC-641191M), 01 Dec 2000.
- Naib Subedar Tuleswar Sonowal (JC-641201L), 01 Dec 2000.
- Naib Subedar Munshi Ram (JC-641202N), 01 Dec 2000.
- Naib Subedar Santosh Singh Katoch (JC-641203W), 01 Jan 2001.
- Naib Subedar Krishan Lal (JC-641204Y), 01 Jan 2001.
- Naib Subedar Bachan Lal (JC-641205F), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Jitender Pal Singh (JC-641206K), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Niranjan Rana (JC-641613M), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Kapoor Kumar Sharma (JC-641207M), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Gururadv Bore (JC-641208P), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Ronak Singh (JC-641209X), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Prakash Sharma (JC-641210V), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Narendra Kumar Katoch (JC-641212X), 01 Feb 2001.
- Naib Subedar Sunil Gostwami (JC-641213A), 01 Mar 2001.

Naib Subedar Balhar Singh (JC-641214H), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Prabhakar Das (JC-641216N), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Jayan KK (JC-641217W), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Raj Pal (JC-641218Y), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Arul K (JC-641219F), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Sukhbinder Singh (JC-641220W), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Thombare Umakant (JC-641221Y), 01 Mar 2001.  
 Naib Subedar Kuldeep Chand (JC-641222F), 01 Apr 2001.

## To be Subedar Major : SKT

Subedar Harish Chander Joshi (JC-208923K), 01 Aug 2000.  
 Subedar Ganesh (JC-208941M), 06 Nov 2000.  
 Subedar Pradial Singh Sandhu (JC-208951W), 15 Sep 2000.  
 Subedar Lal Chand (JC-213635F), 16 Oct 2000.  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).  
 Subedar Sibiratan Das (JC-208990P), 01 Oct 2000.  
 Subedar Sucha Singh (JC-208979W), 01 Oct 2000.  
 Subedar Mandip Singh (JC-208987P), 01 Dec 2000.  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub maj wef 01 Oct 2000 without effect on pay and allces).  
 Subedar Rudha Mohan Rai (JC-208996W), 01 Dec 2000.  
 Subedar Rulda Ram (JC-209003Y), 22 Dec 2000.@  
 @(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).  
 Subedar Prithi Dass Dogra (JC-208942P), 01 Feb 2001.  
 Subedar Siva Sankaran T K (JC-199569W), 14 Feb 2001.@@  
 @@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).  
 Subedar Azad Singh Narwal (JC-199579A), 02 Feb 2000.@@@  
 @@@(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allces).

## To be Subedar : SKT

Naib Subedar Sindhe Pratap Annappa (JC-213669P), 22 Dec 2000.\*\*  
 \*\*\*(Granted seniority in the rank of Sub ef 16 Jun 1998 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Ram Sabuj Dubey (JC-640337H), 01 Sep 2000.##  
 ##(Granted seniority in the rank of Sub wef 20 Sep 1999 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Tanik Prasad Singh (JC-213556M), 18 Dec 2000.\*  
 \*(Granted seniority in the rank of Sub wef 13 Nov 1999 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar S Marimuthu (JC-208980L), 09 Nov 2000.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Sub wef 05 Oct 1999 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Mohamad K (JC-640370A), 16 Apr 2000.@  
 @(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2000 without effect on pay and allces).

Naib Subedar Ram Naresh Ray (JC-640447X), 04 Sep 2000.##  
 ##(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Purkharam Khatri (JC-215515F), 01 Jun 2000.\$\$\$  
 \$\$\$ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 1997 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Pooran Singh (JC-640383X), 24 Jul 2000.@@  
 Naib Subedar Devi Dayal (JC-640386L), 25 Jul 2000.@@  
 @@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Subhash Chander (JC-640387N), 18 Aug 2000.@@@  
 Naib Subedar Puran Mal (JC-640388W), 17 Aug 2000.@@@  
 Naib Subedar Vijay Kumar Ghampy (JC-640779F), 12 Aug 2000.@@@  
 @@@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Arun Kumar Singh (JC-640390N), 04 Sep 2000.  
 (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Dinesh Chander Tiwari (JC-640391W), 01 Sep 2000.  
 Naib Subedar Rajan P (JC-640449H), 01 Sep 2000.  
 Naib Subedar Raghubir Prasad (JC-640393F), 01 Sep 2000.  
 Naib Subedar Ravi Shish Pal (JC-640389Y), 06 Sep 2000.%  
 % (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Prabhu Nath Sharma (JC-213836A), 01 Oct 2000.\$  
 \$(Granted seniority in the rank of Sub wef 22 Apr 1998 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Bijendra Kumar Tiwari (JC-640073M), 21 Nov 2000.&&&  
 &&&(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar E Bhupal Reddy (JC-640392Y), 01 Nov 2000.%%  
 %% (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar George M K (JC-640450X), 01 Nov 2000.  
 Naib Subedar Niranjana Bisoi (JC-640395M), 22 Nov 2000.‡  
 Naib Subedar Bhudwa Baxla (JC-640394K), 04 Dec 2000.  
 ‡(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Narendra Singh (JC-640396P), 12 Jan 2001.‡  
 ‡(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allces).  
 Naib Subedar Nand Kishore Sharma Kaushik (JC-640397Y), 01 Dec 2000.  
 Naib Subedar Rajender Pandey (JC-640399H), 01 Dec 2000

Naib Subedar Ravindran Pillai P K (JC-640400M), 01 Jan 2001.\*\*\*

Naib Subedar Norden Sherpa (JC-640452H), 07 Feb 2001.\*\*\*

Naib Subedar Appanna Krishna Goudar (JC-640402X), 05 Feb 2001.\*\*\*

Naib Subedar Ram Kumar Singh (JC-640403A), 03 Jan 2001.\*\*\*

Naib Subedar Ved Prakash (JC-640404H), 10 Feb 2001.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2001 without effect on pay and allices).

Naib Subedar Kunjumon S (JC-640405L), 04 Dec 2000. & (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allices).

Naib Subedar Gopi Mohan Singha (JC-640406Y), 01 Dec 2000.

Naib Subedar Anil Kumar Singh (JC-640407W), 15 Dec 2000. &&

&& (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allices).

Naib Subedar M Ponnu Swamy (JC-640408Y), 02 Dec 2000. &&

Naib Subedar Lovelichen M S (JC-640409F), 05 Feb 2001. @@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2000 without effect on pay and allices).

Naib Subedar Moniram Mudoj (JC-640454N), 01 Jan 2001.

Naib Subedar Balaraman P (JC-640455W), 01 Jan 2001.

Naib Subedar Ajai Narain Singh (JC-640486W), 01 Jan 2001.

Naib Subedar Mokashi Nisar Latif Khan (JC-640487Y), 06 Feb 2000. [

Naib Subedar Kameleshwar Prasad Dubey (JC-640488F), 09 Feb 2001. [

Naib Subedar Radhashyam Mandal (JC-640461K), 12 Feb 2001. [

Naib Subedar Vijay Kumar Deo (JC-640490Y), 10 Feb 2001. [

Naib Subedar Shaik Abdul Rahman (JC-640491F), 10 Feb 2000. [

[(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2001 without effect on pay and allices).

R. CHATURVEDI  
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 475, dated 18th July 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Infantry

The Mechanised Infantry Regiment

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav Clk Krishan Chander Sehwal (14900989N now JC-419385L), 01st May 2001.

JOSE THOMAS  
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 476, dated 19th July 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Subedar

PA Sub/Clk Darbari Lal Mathur (JC-802532A), 19th Mar 1999.\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 7th Feb 1999 without effect on pay and allowances).

PA Sub/Clk Rambir Chahar (JC-802533H), 1st May 1999.

P9 Sub/Clk Prabhu Singh Shekhawat (JC-802540Y), 14th Aug 2000.%

%(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Aug 2000 without effect on pay and allowances).

PA Sub/Clk Bikash Chandra Mohanty (JC-802544F), 1st Sep 2000.

PA Sub/Clk Kadam Eknath Sakharam (JC-802590K), 1st Sep 2000.

PA Sub/Clk Vasudevan PC (JC-802542K), 1st Sep 2000.

PA Sub/Clk Thomas Mathew (JC-802554Y), 5th Sep 2000.@

PA Sub/Clk Karnail Singh (JC-802558F), 25th Sep 2000.@

@ (Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Sep 2000 without effect on pay and allowances).

PA Sub/Clk Ranbir Singh (JC-802623K), 1st Oct 2000.

PA Sub/Clk Ganesh Pandit (JC-802626X), 1st Oct 2000.

PA Sub/Clk Rajender Singh Yadav (JC-802627A), 8th Nov 2000.£

PA Sub/Clk Joseph CR (JC-802630A), 24th Nov 2000.£

£ (Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Nov 2000 without effect on pay and allowances).

PA Sub Davinder Singh (JC-802235M), 2nd Jan 2000.&

PA Sub Prem Lal Devrani (JC-802236P), 1st Dec 2000.

PA Joginder Singh Tomar (JC-802237X), 1st Dec 2000.

PA Sub Satyayan Yadav (JC-802240X), 28th Dec 2000.&

PA Sub Suresh Pal Singh Yadav (JC-802241A), 7th Dec 2000.&

PA Sub Ram Pratap Choubey (JC-802242H), 1st Dec 2000.

PA Sub Anand Ballabh Joshi (JC-802244N), 6th Jan 2001.&

& (Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Dec 2000 without effect on pay and allowances).

PA Sub Tangi Das Shilpakar (JC-802245W), 5th Jan 2001.\*\*

PA Sub Tulok Nath Pandey (JC-802246Y), 1st Jan 2001.

PA Sub Rudra Nath Shukla (JC-802247F), 1st Jan 2001.

PA Sub Kamesh Dutt Saraswat (JC-802250F), 3rd Jan 2001.\*\*

PA Sub Amar Bahadur (JC-802252M), 1st Jan 2001.

PA Sub Pratap Singh (JC-802255A), 1st Jan 2001.

PA Sub Vinod Grewal (JC-802258N), 1st Jan 2001.

PA Sub Mahesh Prasad Tripathi (JC-802259W), 16th Feb 2001.\*\*

PA Sub Rajeev Kumar Shakya (JC-802260L), 1st Jan 2001.

PA Sub/Clk Dhyam Singh Negi (JC-8022631H), 1st Jan 2001.

PA Sub/Clk Jai Prakash Tiwari (JC-8022654K), 31st Jan 2001.\*\*

\*\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Jan 2001 without effect on pay and allowances).

PA Sub Sri Bhagwan Singh Choudhary (JC-802266M), 9th Feb 2001.%%

PA Sub Ram Gopal Shukla (JC-802268X), 9th Feb 2001.%%

PA Sub Phuman Singh (JC-802269A), 12th Feb 2001.%%

PA Sub Vijay Kumar Sinha (JC-802270P), 10th Feb 2001.%%

PA Sub Bhanwar Singh (JC-802272A), 10th Feb 2001.%%

PA Sub Kumar Pal Saraswat (JC-802275N), 12th Feb 2001.%%

PA Sub Kirpal Singh (JC-802276W), 9th Feb 2001.%%

%% (Granted seniority in the rank of Sub wef 1st Feb 2001 without effect on pay and allowances).

BAL RAM VERMA  
Under Secy.

No. 477, dated 16th July 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Army Postal Service Corps

To be Sub/Clk (Postal)

Nb Sub/Clk (Postal) Jagdish Kumar (JC-834147K), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Issac Varghese (JC-834149P), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) R. K. Shukla (JC-834150K), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Balbir Singh (JC-834151M), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Azad Singh (JC-834152P), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Kali Ram (JC-834153X), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Rohtas Kumar (JC-834154A), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Kashi Prasad (JC-834155H), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) Kuldip Singh (JC-834156L), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) RC Yadav (JC-834157N), 01 Jun 2001.

Nb Sub/Clk (Postal) RS Chauhan (JC-834158W), 01 Jun 2001.

RS CHOUDHARY, Under Secy.

CORPS OF EME (ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING)

No. 478, dated 18th July 2001.—The President is pleased to promote Shri P. Rama Krishnan (SC), Chargeman-I to the grade of Officiating Workshop Officer Group 'B' (now Assistant Engineer) in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 06 Apr 2001 (F/N).

He will remain on probation for two years.

T. C. JAIN, Dy. Secy.

No. 479, dated 18th July 2001.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt Col to be Col

HK Sharma (MR-4355H) AMC/PC 27-2-97 (He will be junior to Gp Capt BR Jain (MR-3647) (AF-24713) and senior to Gp Capt CBS Bhadoria (MR-3812) (AF-24714).

J. R. BHARDWAJ, Maj General

No. 480, dated 18th July 2001.—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78, as amended :—

REGULAR ARMY

Army Dental Corps

(Permanent Commission)

Air Cmde to be Maj Gen and Equivalent

RC Dhir (DR-10206-L), 3-3-2001 with promotion seniority from 1-1-2001, without effect on pay & allowances.

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :—

(Short Service Commission)

Capt to be Quasi-Substantive Major

Vipul Singhal (DS-11921-A), 7-4-2001.

Surg Lt (D) to be Surg Lt Cdr (D)

Ms Shruti Pahwa (DS-11914-K (79048-B), 3-4-2001.

The President is pleased to make the following promotions under AI 37/78, as amended :—

(Permanent Commission)

Major to be Lt Col

Tamal Chowdhury (DR-10409-P), 2-5-2001.

Major to be Lt Col and Equivalent

NV Rivankar (DR-10406-F), 27-4-2001,

Lieut to be Captain

CS Chattopadhyay (DR-10517Y), 19-4-2001.

R. K. SETHI, Brig  
Dy DGDS

No. 481, dated 19th July 2001.—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against each :—

**REGULAR ARMY**

Permanent Commission

To be Major

SK Sengupta (MR-06943P), AMC, 14-9-99, (MOD Notification published in the Gazette of India dated 17 Feb 2001 insofar as it relates to the officer is hereby cancelled)

K B. N. S. DOD, Brigadier  
Dy. DGAFMS (P).

No. 482, dated 17th July 2001—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

Permanent Commission

Capt to be Major

IC No., Name Arm and Date

46679 BP Singh, AC, 23 Apr 2001.  
46680 G Bhatia, AC, 23 Apr 2001.  
46683 S Kolay, AD Arty, 23 Apr 2001.  
46688 B Singh, Inf, 23 Apr 2001.  
46693 A Bali, Inf, 23 Apr 2001.  
46694 RS Bishnoi, Inf, 23 Apr 2001.  
46696 B Joshi, AC, 23 Apr 2001.  
46698 V Ganapathy, Inf, 23 Apr 2001.  
46699 RK Sharma, Arty, 23 Apr 2001.  
46701 V Hariharan, Inf, 23 Apr 2001.  
46702 S Rajain, Inf, 23 Apr 2001.  
46706 A Shanker, Arty, 23 Apr 2001.  
46708 B Rckhi, AD Arty, 23 Apr 2001.  
46715 V Zibbu, AOC, 23 Apr 2001.  
46717 S Duggal, Inf, 23 Apr 2001.  
46720 P Sangwan, Inf, 23 Apr 2001.  
46725 KR Sivaraman, ASC, 23 Apr 2001.  
46726 G Srinivas, Arty, 23 Apr 2001.  
46727 V Abraham, Inf, 23 Apr 2001.  
46730 JS Sekhon, AC, 23 Apr 2001.  
46734 V Joshi Inf, 23 Apr 2001.  
46734 V Joshi Inf 23 Apr 2001.  
46735 DK Singh, ASC, 23 Apr 2001.  
46738 RS Waraich, ASC, 23 Apr 2001.  
46739 N Gour, AOC, 23 Apr 2001.  
46740 RN Scott, AOC, 23 Apr 2001.  
46741 HS Dhillon, Arty, 23 Apr 2001.  
46743 L Bhatia, Inf, 23 Apr 2001.  
46745 S Tyagi, AD Arty, 23 Apr 2001.  
46747 R K Sain, AOC, 23 Apr 2001.  
46748 S Tyagi, M/Inf, 23 Apr 2001.  
46757 SS Shergil, AC, 23 Apr 2001.  
46758 Kanwar D Singh, AC, 23 Apr 2001  
46760 J Singh, Arty, 23 Apr 2001.

46761 D Sharma, M/Inf, 23 Apr 2001.  
46762 HP Singh, Inf, 23 Apr 2001.  
46763 PS Bhinder, ASC, 23 Apr 2001.  
46765 PS Rathore, ASC, 23 Apr 2001.  
46769 AA Deshpande, AOC, 23 Apr 2001.  
46770 NS Multani, Arty, 23 Apr 2001.  
46771 KG Mohanty, Inf, 23 Apr 2001.  
46775 DS Chanana, ASC, 23 Apr 2001.  
46776 SM Pradhan, Inf, 23 Apr 2001.  
46779 S Siddiqui, Arty, 23 Apr 2001.  
46781 P Ray, ASC, 23 Apr 2001.  
46787 MS Gaded, AD Arty, 23 Apr 2001.  
46796 A Bhatnagar, AOC, 23 Apr 2001.  
46797 A Pushkarna, ASC, 23 Apr 2001 .  
46799 RS Chahal, Inf, 23 Apr 2001.  
46803 U Nigam, ASC, 23 Apr 2001.  
46805 MK Sharma, Arty, 23 Apr 2001.  
46807 S Tomar, AOC, 23 Apr 2001.  
46808 AS Katiyar, Arty, 23 Apr 2001.  
46814 D Sharma, Arty, 23 Apr 2001.  
46823 DD Manik, ASC, 23 Apr 2001.  
46825 S Saxena, Inf, 23 Apr 2001.  
46826 Naresh, ASC, 23 Apr 2001.  
46827 TR Bera, AOC, 23 Apr 2001.  
46828 S Mista, ASC, 23 Apr 2001.  
46832 A Ramadasani, Inf, 23 Apr 2001.  
46834 V Srinivas, AC, 23 Apr 2001.  
46835 M Saini, Inf, 23 Apr 2001.  
46836 A Mahajan, M/Inf, 23 Apr 2001.  
46839 A Sharma, Arty, 23 Apr 2001.  
46842 A Bhargava, AD Arty, 23 Apr 2001.

**PERMANENT COMMISSION (SL)**

**CAPT TO BE MAJ**

SL-4598 D S Dubey, 22 Feb 99.  
(But for pay & allowances wef 10 Jan 2000).

**LT TO BE COPT**

(Special List)

SL 4301 SK Jain, 27 Apr 2001.  
SL 4302 R Vasudevan, 27 Apr 2001.  
SL 4303 Karan Singh, 27 Apr 2001.  
SL 4304 U Kanadjar, 27 Apr 2001.  
SL 4305 VS Meel, 27 Apr 2001.  
SL 4306 Harphool Singh, 27 Apr 2001.  
SL 4307 NS Bhatu, 27 Apr 2001.  
SL 4308 Arjun Singh, 27 Apr 2001.  
SL 4309 KV Sitaram, 27 Apr 2001.  
SL 4310 LS Singh, 27 Apr 2001.  
SL 4314 DK Dana, 27 Apr 2001.  
SL 4315 MSV Nair, 27 Apr 2001.

SL 4316 RS Bisen, 27 Apr 2001.  
 SL 4317 RB Singh, 27 Apr 2001.  
 SL 4318 TD Anthappan, 27 Apr 2001  
 SL 4321 PS Shekhawat, 27 Apr 2001  
 SL 4319 RK Bhalla, 27 Apr 2001.  
 SL 4320 R Ashok Kumar, 27 Apr 2001.  
 SL 4322 SS Yadav, 27 Apr 2001.  
 SL 4323 B Sundaravadivelu, 27 Apr 2001  
 SL 4324 Suresh Chander, 27 Apr 2001  
 SL 4325 MVL Narayanan, 27 Apr 2001.  
 SL 4338 NG Patra, 27 Apr 2001.  
 SL 4311 Ashok Kumar, 27 Apr 2001.  
 SL 4312 BS Kataria, 27 Apr 2001.  
 SL 4313 D Joshi, 27 Apr 2001.  
 SL 4326 Anand Kumar, 27 Apr 2001.  
 SL 4327 SG Dwivedi, 27 Apr 2001.  
 SL 4329 PS Vasant, 27 Apr 2001.  
 SL 4330 Alok, 27 Apr 2001.  
 SL 4331 JCS Bhadoria, 27 Apr 2001.  
 SL 4332 BH Laxman, 27 Apr 2001.  
 SL 4333 Ashok Kumar, 27 Apr 2001.  
 SL 4334 SS Kalalia, 27 Apr 2001.  
 SL 4335 PK Jamla, 27 Apr 2001.  
 SL 4336 T Thirupathi, 27 Apr 2001.  
 SL 4337 A Routray, 27 Apr 2001.  
 SL 4339 RB Singh, 27 Apr 2001.  
 SL 4340 SS Punia, 27 Apr 2001.  
 SL 4341 LK Desai, 27 Apr 2001.  
 SL 4342 HG Singh, 27 Apr 2001  
 SL 4343 Nanak Chand, 27 Apr 2001.  
 SL 4344 Hans Raj, 27 Apr 2001.  
 SL 4345 T Raveendran, 27 Apr 2001.  
 SL 4346 PS Kataria, 27 Apr 2001.  
 SL 4347 S Singh, 27 Apr 2001  
 SL 4348 VS Yadav, 27 Apr 2001.  
 SL 4349 Umed Singh, 27 Apr 2001  
 SL 4350 Bipin Kumar, 27 Apr 2001  
 SL 4352 JS Brar, 27 Apr 2001.  
 SL 4353 IS Jyala, 27 Apr 2001.  
 SL 4354 SC Singh, 27 Apr 2001,  
 SL 4355 KR Subbu, 27 Apr 2001  
 SL 4356 SP Sahu, 27 Apr 2001  
 SL 4357 ML Verma, 27 Apr 2001  
 SL 4358 MS Jaswal, 27 Apr 2001  
 SL 4359 RD Gaur, 27 Apr 2001.  
 SL 4360 VS Negi, 27 Apr 2001.

SL 4361 Daljit Singh, 27 Apr 2001  
 SL 4362 R Prasad, 27 Apr 2001  
 SL 4363 Abhijit Ghosh, 27 Apr 2001  
 SL 4364 K Dhayanidhi, 27 Apr 2001  
 SL 4365 Raj Kumar, 27 Apr 2001.  
 SL 4366 DR Sharma, 27 Apr 2001.  
 SL 4367 R Chand, 27 Apr 2001.  
 SL 4370 S Kumar, 27 Apr 2001.  
 SL 4368 BS Rawat, 27 Apr 2001.  
 SL 4369 GC Sharma, 27 Apr 2001.  
 SL 4371 K Kishore, 27 Apr 2001.

SD RAI  
 SCSO  
 MS 8C

No. 483, Dated 17th July 01.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

MAJORS TO BE SUBSTANTIVE LT COL (TIME SCALE)

SL Verma (IC-38891) AOC, 07 Jun 2000.

SS SINHA  
 Dy Asstt. Military Secy.

AIR BRANCH

No. 484, dated 18th July, 2001—The President is pleased to make the following promotions :—

(JWOs to WOs)

Af Fit

251905 RP Vashist, 02-06-95.

Elect Fit

280922 RD Jena, 21-12-92.

Eng Fit

250008 Ambika Singh, 01-08-95

251363 D Mishra, 01-08-95.

263595 Sone Lal, 01-08-95.

263534 Manak Chand, 01-08-95.

263725 V Arumugam, 01-08-95

269587 Chandrashekharan, 01-08-95

269616 Ramawtar Sharma, 01-09-95.

263005 GR Kumar, 01-09-95

248057 SS Tyagi, 01-09-95.

263877 SS Lal, 01-09-95

263690 Radhakrishnan, 01-09-95.

269828 S Sugriva, 02-12-95

270130 K Singh, 02-12-95

267517 Sukhdev Chand, 02-12-95.

247662 MC Roy 02-12-95.

270100 Chemmeri Shan Mukha Das, 2-12-95.	264964 RP Singh, 2-12-96.
269818 KK Verma, 2-12-95.	27J000 PK Sen, 2-12-96.
270004 SM Das, 2-12-95.	265063 R Singh, 2-12-96.
264063 RB Singh, 4-12-95.	265116 Sohan Ram, 2-2-97.
264133 C Singh, 1-2-96.	265092 M Rai, 2-2-97.
264110 RN Ram, 1-2-96.	265051 N Singh, 2-2-97.
264130 RS Rawat, 1-2-96.	265059 H Singh, 2-2-97.
269125 I Singh, 1-2-96.	265119 OP Goel, 2-2-97.
270024 DS Gupta, 1-2-96.	271057 Jaibhagwan, 2-2-97.
270217 DR Sharma, 1-2-96.	247589 Laneswar Saharia, 1-4-97.
264184 L Deshras, 1-2-96.	251627 B Chaturvedi, 1-4-97.
264272 SS Bhatia, 1-2-96.	269427 MS Ali, 1-4-97.
255354 G Singh, 1-2-96.	251552 Radha Mohan Pareek, 2-7-97.
264186 SN Konwar, 1-2-96.	270026 SK Tripathi, 1-4-97.
247520 AP Chouhan, 1-4-96.	270282 G Dubey, 1-4-97.
263025 A Nath, 1-4-96.	270231 BR Verma, 1-4-97.
232770 RK Singh, 1-4-96.	264546 RG Singh, 1-4-97.
249028 K Singh, 1-4-96.	264977 HS Mahton, 1-4-97.
246923 Gangaram Tiwari, 1-4-96.	270855 P KGupta, 1-4-97.
269149 KC Sharma, 1-4-96.	271113 PD Dabral, 1-4-97.
251101 SP Trivedi, 1-4-96.	271115 N Singh, 1-6-97.
270086 U Singh, 1-4-96.	265174 RS Verma, 1-6-97.
264086 B Singh, 1-4-96.	271130 K Satyanarayana, 1-6-97.
270467 GD Yadav, 1-4-96.	271258 AK Sinha, 1-6-97.
270360 SN Ram, 2-7-96.	265357 R Kumar, 1-6-97.
270330 P Swarup, 2-7-96.	271316 PC Patnaik, 1-6-97.
270392 Rangaraj, 2-7-96.	270128 RK Lamba, 2-7-97.
270524 M Quarban, 2-7-96.	249735 KA Siddiqui, 2-7-97.
264575 DS Singh, 2-7-96.	271499 AS Rawat, 2-7-97.
264632 R Sharma, 2-7-96.	265532 Manager Singh, 2-7-97.
264617 K Lal, 2-7-96.	271515 RA Upadhyay, 2-7-97.
264382 AW Khan, 2-7-96.	265450 RC Nair, 2-7-97.
264730 N Vasudevan, 2-7-96.	271462 S Pal, 2-7-97.
264706 UB Singh, 2-7-96.	271533 K Pal, 2-7-97.
270696 TV Kumar, 2-7-96.	264630 SP Yadav, 2-7-96.
270693 SS Bedi, 4-7-96.	263535 Ram Lok, 1-8-95.
270586 J Chand, 1-11-96.	264960 PK Verma, 2-12-95.
270518 L Jha, 1-11-96.	265178 BP Singh, 4-2-97.
270698 S Sharma, 1-11-96.	270912 RA Sharma, 1-11-95.
264669 S Singh, 1-11-96.	
270854 KL Singh, 1-11-96.	<b>Flt Eng</b>
270755 TK Chacko, 2-11-96.	668596 KS Dhillon, 2-8-97.
270773 PN Dwivedi, 1-11-96.	660869 HN Jha, 2-8-97.
270965 RP Choubey, 1-11-96.	661517 PN John, 2-8-97.
270914 M Sain, 2-12-96.	662625 K Surandran, 11-8-97.
270909 PN Dhyani, 2-12-96.	662568 A Balasubramanian, 6-9-97.
265045 Sewa Singh, 2-12-96.	666824 GK Mishra, 1-6-98.
270961 NM Khamari, 2-12-96.	660652 Shivkumar, 1-6-98.
	662437 EB Reddy, 1-6-98.
	669004 Sree Harshan, 1-6-98.



## Flt Gun

292068 K Rashmikant, 1-11-98.  
 292753 VR Tripathi, 1-11-98.  
 293538 D Tiwari, 1-11-98.  
 292077 N Madhvan, 1-11-98.  
 292164 I Singh, 1-11-98.  
 642265 RK Singh, 1-11-98.  
 293899 SB Yadav, 1-11-98.  
 292859 N Lobo, 1-11-98.  
 293176 PR Choudhary, 1-11-98.  
 293775 Arbind Kumar, 1-11-98.  
 643653 Ramachandran, 1-11-98.  
 642807 Subramaniam, 1-11-98.  
 292603 Rajinder, 1-11-98.  
 294413 M Singh, 1-11-98.  
 643672 MM Singh, 1-11-98.  
 642876 M Singh, 1-11-98.  
 644519 S Perumal, 1-11-98.  
 610079 Rajappan, 1-11-98.  
 293808 AS Nair, 1-11-98.

## Flt Sig

674086 YP Singh, 2-8-97.

## Inst Fit

239474 KC Kunchan, 3-3-96.  
 254274 S Singh, 5-3-96.  
 255680 A` Kumar, 5-3-96.  
 280418 Bhagat Ram Malhotra, 2-7-96.  
 280591 L C Sharma, 2-7-96.  
 281824 O Ghuria, 3-5-97.  
 255366 MK Basu, 3-5-97.  
 281598 Kailasnath, 3-5-97.  
 281654 SK Sehgal, 3-5-97.  
 281697 NA Mathew, 3-5-97.  
 281733 C Kutty, 3-5-97.  
 281781 CT Gopinathan, 3-5-97.  
 252211 DS Sharma, 3-1-96.  
 253794 SK Banik, 3-3-96.

## RAD FIT

650869 PC Medhi, 2-4-98.  
 620112 R Tiwari, 2-12-97.  
 620882 RS Pandey, 2-12-97.  
 620022 SD Sharma, 2-12-97.  
 620020 Harisha Ram Mishra, 2-12-97.  
 618126 KR Kulkarni, 2-12-97.  
 617249 RK Singh, 2-12-97.  
 275211 GG Mishra, 2-12-97.  
 295412 RC Singh, 2-12-97.  
 617692 HR Singh, 2-12-97.

618617 SK Sharma, 2-8-96.  
 601031 BP Yadav, 3-12-96.  
 617212 TM Nagabhsaiah, 2-12-97.  
 620707 DP Roy, 2-12-97.  
 616448 HR Chakraborty, 1-8-98.  
 620615 SRV Singh, 1-8-98.  
 620749 V Singh, 1-8-98.  
 619893 YD Tyagi, 1-8-98.  
 621486 Keshar Singh Bisht, 1-8-98.  
 620747 SG Chavan, 1-8-98.  
 634988 SV Singh, 1-8-98.  
 620302 DP Singh, 1-8-98.  
 616482 BS Rai, 1-8-98.  
 620614 SP Malik, 1-8-98.  
 650907 RD Singh, 1-8-98.  
 620481 PK Kuldeep, 1-8-98.  
 616987 SS Dhillon, 1-8-98.  
 618839 S Thakur, 1-8-98.  
 635176 KR Choudhary, 1-8-98.  
 650932 RP Chouhan, 1-8-98.  
 617230 SN Choudhary, 1-8-98.  
 256808 Indra Kumar Sachan, 1-8-98.  
 620966 RS Dahiya, 1-8-98.  
 635011 BS Ahalawat, 1-8-98.  
 619652 SK Nayak, 3-8-98.  
 620051 S Kumar, 3-8-98.  
 620480 C Pal, 3-8-98.  
 619923 S Kumar, 3-8-98.  
 619919 BN Singh, 3-8-98.  
 261153 B Prasad, 3-8-98.  
 680723 R Singh, 16-8-98.  
 651245 Janeshwar, 2-10-98.  
 621761 J Singh, 2-10-98.  
 635297 SK Rathore, 2-10-98.  
 635462 MR Lamsar, 2-12-98.  
 651318 DC Saini, 2-12-98.  
 651351 SN Prasad, 2-12-98.  
 635626 KS Yadav, 2-4-99.  
 651455 G Singh, 2-4-99.

## RDO FIT

290748 SVS Reddy, 5-7-95.  
 290784 Prakash Chand Kalia, 5-7-95.  
 268037 UN Pandey, 5-7-95.  
 290053 S Piraman, 5-7-95.  
 237486 SF Tyagi, 2-9-95.  
 289616 MG George, 2-9-95.  
 288860 VV Yohannan, 2-9-95.  
 245765 PK Ramachandran, 2-9-95.

- 289831 PR Singh, 2-9-95.  
 289280 S Chander, 2-9-95.  
 290244 RB Singh, 2-9-95.  
 290346 RP Singh, 4-9-95.  
 267042 R Kumaran, 2-1-96.  
 289487 Om Prakash, 2-1-96.  
 290274 V Kumar, 2-1-96.  
 268149 RA Singh, 2-1-96.  
 290275 R Singh, 2-1-96.  
 266508 P Bhaskar Rao, 2-1-96.  
 600171 KP Balasubramanian, 4-1-96.  
 600167 MP Balakrishnan, 4-1-96.  
 600064 RS Pandey, 4-1-96.  
 600155 Vijay Kumar Sinha, 2-3-96.  
 290595 JP Pokhariyal, 2-3-96.  
 290780 RN Banerjee, 2-3-96.  
 288179 Lal Chand, 2-3-96.  
 289468 J Singh, 2-3-96.  
 290682 KK Abharam, 2-3-96.  
 288499 PJ Johnson, 2-3-96.  
 289485 Sitaram, 2-3-96.  
 266481 ADG Attar, 2-3-96.  
 600320 RC Dey, 2-3-96.  
 289814 SSS Rai, 3-12-96.  
 290787 Charan Dass, 3-12-96.  
 239049 MM Maindola, 3-12-96.  
 267258 AK Sharma, 3-12-96.  
 289842 NP Singh, 3-12-96.  
 245780 GC Dubey, 3-12-96.  
 288198 G Mishra, 3-12-96.  
 600432 US Singh, 3-12-96.  
 601006 S Singh, 3-12-96.  
 266506 BM Patnaik, 3-12-96.  
 289367 TN Singh, 3-12-96.  
 289429 GD Dheer, 3-12-96.  
 600412 Balram Kumar, 3-12-96.  
 600472 M Singh, 3-12-96.  
 600367 SR Nath, 3-12-96.  
 290399 S Chander, 3-12-96.  
 290599 Mukund Lal, 3-12-96.  
 600481 H Shanker, 3-12-96.  
 601194 Banik, 3-12-96.  
 601222 Kulwant Singh, 3-12-96.  
 289467 Rattan Lal, 3-12-96.  
 600162 SS Singh, 3-12-96.  
 245900 HC Sharma, 3-12-96.  
 600364 BS Raju, 3-12-96.  
 600441 Shailendra Kumar, 3-12-96.  
 601040 K Chand, 3-12-96.  
 600968 C Manoharan, 3-12-96.  
 601038 VK Thapar, 3-12-96.  
 601023 Jahan Singh Sainger, 3-12-96.  
 290470 Ram Dayal, 3-12-96.  
 290808 CC Adhikari, 3-12-96.  
 289198 GS Bhati, 3-12-96.  
 600044 RK Singh, 3-12-96.  
 601370 R Singh, 3-12-96.  
 601017 P Mohandas, 3-12-96.  
 601406 SN Verma, 3-12-96.  
 288558 AN Pandey, 3-12-96.  
 601446 VK Prasad, 3-12-96.  
 289162 JP Sharma, 3-12-96.  
 601415 KK George, 4-1-97.  
 600755 KN Pavithar, 4-1-97.  
 600424 C Sukumaran, 4-1-97.  
 601430 S Elangavan, 4-1-97.  
 600316 NM Basu, 4-1-97.  
 290424 RS Yadav, 4-1-97.  
 601245 Raj Kumar, 4-1-97.  
 601242 AS Gill, 4-1-97.  
 601030 RK Singh, 4-1-97.  
 290453 NS Pillai, 3-3-97.  
 290240 MM Singh, 3-3-97.  
 289821 BL Mehta, 3-3-97.  
 600628 A Kumar, 3-3-97.  
 601656 P Singh, 3-3-97.  
 601666 Rattan Lal, 3-3-97.  
 601841 JP Tripathi, 3-3-97.  
 601862 SP Gelnai, 3-3-97.  
 601679 RK Sahay, 3-7-97.  
 601843 ML Shukla, 3-7-97.  
 288204 CR Das, 3-7-97.  
 601736 K Boara, 3-7-97.  
 601885 BC Dass, 3-7-96.  
 601711 PM Chandran, 3-7-96.  
 601942 Madan Mohan Das, 3-7-97.  
 601939 RS Mishra, 3-7-97.  
 601934 R Singh, 3-7-97.  
 602011 RS Pathania, 3-7-97.  
 601980 J Nagaratnam, 3-7-97.  
 601950 AA Ansari, 3-7-97.  
 289134 SK DAS, 3-7-97.  
 290720 PC Bhargava, 3-7-97.  
 600294 KA Jose, 3-7-97.  
 600178 Hanikrishnan, 2-8-97.  
 601039 Jagdish Singh, 2-8-97.  
 601161 NC Pillai, 2-8-97.  
 602218 R Kumar, 2-8-97.

602231 D Ram, 2-8-97.  
 266894 HS Pathak, 2-6-93.  
 236485 B Nath, 19-7-90.  
 289820 V Mishra, 2-1-96.  
 289810 VK Diwedi, 2-1-96.  
 600028 PN Singh, 4-1-96.  
 290979 PPTC Pillai, 4-1-96.  
 600004 Mahesh Kumar Sharma, 4-1-96.  
 290480 DK Chakraborty, 2-3-96.  
 267670 Meerugu Veera Babu, 2-3-96.  
 601024 DS Chauhan, 3-12-96.  
 288475 RK Roy, 3-12-96.  
 600066 Lalji Nath, 3-12-96.  
 289220 Khem Chand Bhati, 3-12-96.  
 601182 SK Chopra, 3-12-96.  
 600729 KN Pandey, 3-12-96.  
 600190 G Lal, 3-3-97.  
 600006 S Singh, 3-3-97.  
 601637 SPN Pillai, 3-3-97.  
 601974 C Kumaran, 3-7-97.  
 600016 Ram Kewal, 3-7-97.  
 600329 BS Yadav, 2-8-97.  
 602188 M Prasad, 2-8-97.  
 600986 Sobaram Singh, 2-8-97.

## PHOTO FIT

269688 V Peethambaram, 1-4-98.

## WPN FIT

251897 Ram Daras Choubey, 2-9-90.  
 282823 S Mandal, 2-12-96.  
 271002 K Singh, 2-12-96.

## ADSO

257563 OM Prakash, 4-7-97.  
 261634 SB Tripathi, 6-7-97.  
 257387 J Purohit, 2-8-97.  
 260745 SK Malhotra, 2-12-97.  
 262397 M Prasad, 2-12-97.  
 256400 B Singh, 2-12-97.  
 262068 DS Jaswal, 2-12-97.  
 615136 M Singh, 2-12-97.  
 615151 KC Katoch, 2-12-97.  
 615166 DK Chakraborty, 4-12-97.  
 262080 Mithilesh Kumar, 6-7-97.  
 261404 P Sharma, 6-7-97.

## AFSO

262281 KB Izardar, 3-3-97.  
 267339 MP Chetty, 3-3-97.  
 267439 RS Yadav, 2-6-97.

267510 C Tholasidjarah, 2-6-97.  
 267533 S Kumar, 2-6-97.  
 267720 P Sadasivan, 2-6-97.  
 267976 Ram Daran, 2-8-97.  
 268007 RK Kurmi, 2-8-97.  
 268268 Rajinder Singh, 2-8-97.  
 268368 SB Yadav, 2-10-97.  
 268271 MS Shando, 2-10-97.  
 268369 BR Yadav, 2-10-97.  
 268334 B Prakasam, 4-10-97.  
 268466 PA Mathai, 4-10-97.  
 266747 SA Azeez, 2-5-98.  
 267123 DK Ghosh, 2-5-98.  
 267600 S Chunder, 2-5-98.  
 229645, GK Sharma, 2-3-97.  
 267934 B Hari, 2-6-97.  
 267944 Raju, 4-6-97.  
 268117 Bram Sawroop Vatsya, 2-8-97.

## CLK ACCTS

252513 M Lal, 4-9-97.  
 258631 TN Shukla, 4-9-97.  
 258680 PK Singh, 4-9-97.  
 258877 AK Choubey, 4-9-97.  
 259907 JS Saini, 4-9-97.  
 272496 Mohd All, 4-9-97.  
 272748 R Sharma, 6-9-97.  
 273767 TP Singh, 6-9-97.  
 269783 NC Yadav, 6-9-97.  
 274231 L Ram, 6-9-97.  
 277955 Hansraj, 3-10-97.  
 278249 Misra, 3-10-97.  
 278563 RD Tripathi, 3-10-97.  
 630014 RB Sharma, 3-10-97.  
 274477 V Singh, 3-10-97.  
 274809 O. P. Sharma, 3-10-97  
 274913 T. F. Ouseph, 3-10-97  
 255676 T. Ram, 2-12-97  
 277389 F. S. Shekhawat, 2-12-97  
 271208 G. S. Matharoo, 2-12-97  
 278128 A. A. Maharana, 2-12-97  
 278240 Lakshman Ram Verma, 3-2-98  
 278565 D. Ram, 3-2-98  
 278702 B. Tiwari, 3-2-98  
 278640 Singh, 3-2-98  
 278644 S. C. Prasad, 3-2-98  
 278382 D.S. Khtwal, 3-2-98

278727 Cruz, 3-2-98	277256 D. S. Kataria, 9.1.97
278870 B. Singh, 2-3-98	277231 R. A. Ram, 2.6.97
278927 G. J. Koli, 2-3-98	274893 R. P. Kathuria, 2.6.97
278726 K. S. Nair, 2-3-98	277261 R. P. Bajaj, 2.6.97
278790 M. Singh, 4-3-98	277310 G. S. Yadav, 2.6.97
278874 D. P. Singh, 4-3-98	277300 P. Balachandran, 2.6.97
279076 S. Singh, 4-3-98	277341 Ram Kishore, 2.6.97
279046 Udayanath Nanda, 4-3-98	277375 K. R. Neir, 2.6.97
279077 K. S. Gill, 4-3-98	277417 Ram Surt, 2.6.97
279005 SR Wankhede, 3-9-98	277392 B. P. Singh, 2.6.97
279210 RN Singh, 3-9-98	277400 J. Nath, 2.6.9
279228 ID Ram, 3-9-98	277428 R. D. Thakur, 2.6.97
259808 RA Singh, 3-9-98	277432 B. N. Swamy, 2.6.97
253164 BL Kureel, 3-9-98	277443 Jitram, 2.6.97
278877 Ram Lal, 3-9-98	277434 G. C. Naidu, 2.7.97
277393 BS Rao, 3-9-98	277458 I. U. Khan, 2.7.97
274206 KL Arora, 3-12-98	277488 S. S. Rawool, 2.7.97
252060 MD Safaiwala, 3-12-98	277501 C. P. Yadav, 2.7.97
272760 M Sharma, 3-12-98	277571 V. S. Reddy, 1.8.97
278956 A Ram, 3-12-98	277542 Varkey Chacko, 1.8.97
279273 RK Srivastava, 3-12-98	277708 R. Ram, 1.8.97
279257 H Singh, 3-12-98	255357 M. Mani, 2.12.94
279276 GB Pillai, 3-12-98	274598 S. L. Tandan, 2.2.98
279483 JS Verma, 3-12-98	274531 G. C. Kushwaha, 20.9.96
CLK GD	274084 R. N. Sharma, 20.9.96
273276 SM Sampat, 20-9-96	274570 V. D. Sharma, 20.9.96
274530 RN Trivedi, 20-9-96	274762 S. C. Vohra, 24.9.96
274590 BR Dutta, 20-9-96	274864 R. N. Singh, 26.9.96
274575 RK Nair, 20-9-96	274763 J. Prasad, 26.6.96
274788 DD Dogra, 22-9-96	277255 Dharm Singh, 9.1.97
274741 RM Puspangandan, 24-9-96	277502 S. C. Singh, 1.8.97
274736 Sadasivam, 24-9-96	258128 D. S. Chouhan, 2.3.95
274758 JB Singh, 24-9-96	253973 Harish Chand, 20.9.96
274756 RK Mishra, 24-9-96	255633 R. S. Maurya, 1.1.97
274757 RA Khan, 24-9-96	955781 P. J. George, 9.1.97
274867 J Singh, 26-9-96	277254 R. C. S. Sood, 2.6.97
274860 RP Singh, 26-9-96	259567 D. C. Srivastava, 2.6.97
274855 TM Raju, 26-9-96	277704 Balbir Singh Sraw, 2.10.97
274928 Karam Singh Seron, 26-9-96	277794 S. K. Singh, 2.10.92
274950 BP Tiwari, 1-1-97	
274926 Dharamjit, 1-1-97	
274927 R Pall, 1-1-97	
274994 SP Jakhmola, 1-1-97	
274997 OP Trivedi, 1-1-97	
277020 SP Agarwal, 1-1-97	
277230 Lalji Prasad, 9-1-97	
277037 TV Joseph, 9-1-97	
277323 R Singh, 9-1-97	

277791 Awadhraj Singh 2-10-97  
 277837 Y. P. Singh 2-10-97  
 277841 M. Ram 2-10-97  
 277838 Ramji Verma 2-10-97  
 277848 Murugan 2-10-97  
 277880 S. R. Singh 2-10-97  
 277975 S. K. Sharma 2-10-97  
 278006 Mohan Lal 2-10-97  
 278029 D. K. Ganguly 2-10-97  
 252320 K. S. Thakur 2-12-97  
 274250 B. P. Singh 2-12-97  
 278039 M. Jacob 2-12-97  
 274254 R. N. Singh 2-12-97  
 274589 M. Chakraborty 2-12-97  
 277309 S. R. Tiwari 2-12-97  
 278189 R. S. S. Parihar 2-12-97  
 278083 Samuel 2-12-97  
 280131 K. nnan 2-12-97  
 278186 S. P. Singh 2-1-98  
 278180 S. C. Dey 2-1-98  
 278183 K. S. Dey 2-1-98  
 278107 K. M. Mandal 2-1-98  
 278413 A. S. Dey 2-1-98  
 278412 B. C. K. Yadav 2-1-98  
 274600 Mathew John 2-9-96  
 278333 H. Singh 2-1-98

## EQPT ASST

272621 S. Rajjappan 2-10-95  
 272724 K. C. Balakrishnan 2-7-96  
 272934 Bhim Singh 2-12-96  
 273002 Harmesh Singh Mann 2-12-96  
 274257 Jamil Akhtar Syed 2-6-97  
 274230 G. C. Dey 2-6-97  
 274194 S. N. Sharma 2-6-97  
 274237 S. Singh 2-6-97  
 274180 R. K. Sharma 2-6-97  
 272984 Babu Ram Yadav 2-6-97  
 272932 Satwant Singh 2-7-97  
 259176 K. S. Singh 2-7-97  
 272464 N. V. Mulye 2-7-97  
 273523 Antony Julius Kaiser 2-7-97.  
 273987 S. K. Singh 2-7-97.  
 274472 T. M. Kunju 2-7-97.

267712 S. S. Sodhi 2-7-97.  
 274539 K. Ram 2-7-97.  
 630009 V. N. Srivastava 2-7-97.  
 272641 B. P. Binoy 2-10-95.  
 273272 S. N. Roy 4-12-96  
 258148 Santi Ranjan Bose 8-12-96  
 259205 M. I. Srivastava 8-12-96  
 272134 R. Yadav 10-12-96  
 274099 M. K. Sukumaran 1-3-97  
 274177 Brahma Nand 2-6-97  
 274255 C. Ram 2-6-97  
 266031 B. S. Dhankar 2-7-97  
 275398 B. K. Naik 2-7-97  
 274165 M. Budhi Ram 2-6-97  
 255402 B. K. Sarkar 2-7-97

## MED ASST

241754 Om Prakash Jat 2-2-97  
 241737 H. Chand 2-2-97  
 241734 S. C. Awasthi 2-2-97  
 241704 K. Veluswamy 2-2-97  
 241743 A. R. Khan 2-2-97  
 241744 R. S. Singh 2-2-97  
 241731 I. B. Bepary 2-2-97  
 241742 S. D. Singh 2-2-97  
 241757 S. S. Sekhawat 2-6-97  
 241756 R. R. Chouhan 2-6-97  
 241771 R. C. Lakshmi 2-6-97  
 241774 B. Ram 2-6-97  
 241735 G. P. Bagul 2-8-97  
 241778 P. D. Singh 2-8-97  
 241803 A. Singh 2-8-97  
 241775 S. Mishra 2-8-97  
 241780 D. Mishra 2-8-97  
 241788 C. S. Barman 2-8-97  
 241777 Gopal Singh 2-8-97  
 241829 S. C. Kotnala 2-8-97  
 241816 P. D. Yadav 2-10-97  
 241828 R. Kushwaha 2-10-97  
 241844 Bishnu Ram 2-10-97  
 241841 MN Rai 2-10-97  
 241849 Khurshid 2-10-97  
 241839 R C Singh 2-10-97  
 241703 V Subramaniam 2-12-97

241843 L P Gupta 2-12-97  
 241854 A K Dutta 2-12-97  
 241702 Bvijayaan 2-12-96

## Met Asst

245845 R C Bhatia 2-11-96  
 272019 Govind Singh 2-7-97  
 243363 T B Gavalni 2-7-97  
 245607 S N Singh 1-11-97  
 266503 R Mishra 1-11-97  
 230496 N C Sharma 1-11-97  
 267252 S Sukumaran 1-11-97  
 267417 R N Jha 1-11-97  
 289649 V S Nair 2-2-98  
 266975 B Singh 1-12-96  
 267158 Anup Lal Singh 2-5-97  
 267437 K Lakshman 2-2-98

## RDO TECH

267276 Ram Suresh Tewari 1-11-96  
 268805 N. N. Bali 1-11-96  
 288675 C. K. Singh 3-11-96  
 289780 N. S. Thakur 3-11-96  
 289627 R. Singh 3-11-96  
 289599 D. N. Singh 3-11-96  
 290656 T. P. Philip 2-12-96  
 290605 B. S. Man 2-12-96  
 290299 Upendra Prasad Singh 2-12-96  
 600099 J. Rai 2-12-96  
 600015 R. K. Yadav 1-2-97  
 290992 Nathu Ram 1-2-97  
 268572 L. M. Prasad 3-2-97  
 288850 R. B. Agarwal 3-2-97  
 287494 MV Mahajan 2-5-97  
 289192 J Pandey 2-5-97  
 289750 RS Rai 2-5-97  
 600713 YN Pandey 4-5-97  
 600650 PC Zachariah 4-5-97  
 600645 K Umayathi 1-8-97  
 600587 VK Misra 1-8-97  
 600758 CS Kehal 1-8-97  
 600525 SB Singh 1-8-97  
 601667 PW Sharma 1-11-97  
 601410 J Singh 1-11-97

266012 D Singh 1-11-97  
 601034 SC Mishra 1-11-97  
 288705 Dubey 1-11-97  
 289811 Srinivas 2-12-97  
 289648 AP Lal 2-12-97  
 289658 BK Singh 2-12-97  
 290036 SS J iswal 2-12-97  
 288399 SP Singh 1-8-95  
 290770 R Singh 2-12-96  
 290526 RK Bajpai 2-5-97  
 600363 Syed Imam 1-8-97  
 601174 KK Jha 1-11-97

## RTO

267733 PC Patil 8-2-95  
 267785 P N Singh 12-2-95  
 268566 R Thangappan 5-12-96  
 268586 Radhey Shyam 7-12-96  
 268594 C P Bhaskaran 7-12-96  
 268691 Ramnath 7-12-96  
 268807 B Singh 7-12-96  
 268940 R M Pandey 7-12-96  
 268193 S P Singh 7-12-96  
 268590 S D Pillai 7-12-96  
 268950 Vishwambhar Nath 9-12-96  
 268957 R Chand 9-12-96  
 268959 G Murlidhar 9-12-96  
 268963 G Parmeswaram 9-12-96  
 268967 Jugraj Singh 9-12-96  
 269000 S C Bagga 2-6-97  
 268973 Radhakrishnan 2-6-97  
 282030 I C Chauhan 2-6-97  
 282077 T P Yadav 2-6-97  
 288388 K N Sharma 3-7-97  
 288329 G S Chawla 3-7-97  
 282580 B P Sahai 3-7-97  
 288747 Dilip Paul 2-8-97  
 288662 M Salimuddin 2-8-97  
 288763 D K Singh 3-11-97  
 289087 G N Singh 3-11-97  
 288695 Chakraborty 3-11-97  
 289028 S N Thakur 3-11-97

## SEW

263127 Yadav 1-12-96  
263241 S Singh 1-5-97  
263680 An Rao 1-5-97  
264752 M Singh 1-11-97

## IAF (P)

276246 R N Mishra 2-1-95

## CAT ASSY

254830 S Singh 2-12-96  
259214 G Ram 2-5-96  
272224 K Lal 4-12-96  
258411 J C Mohan 4-4-97  
254831 P Gopalkrishnan 4-4-97  
261605 M Sarkar 2-11-97  
272852 Ram Niwas Singal 2-11-97  
272539 B Chaudhary 1-2-98  
272030 Nathi Ram Saini 1-2-98

## MUSN

287362 J Kumar 1-11-97  
287367 M Singh 2-6-97  
287370 R C Razzaq 1-11-97

Total : 687 (Six Hundred Eighty Seven only)

G SRINIVASAN, Desk Officer

No. 485, dated 18 July 2001.—The President is pleased to make the following substantive promotion :-

## INDIAN AIR FORCE

## ADM BRANCH

## FLT LT TO BE SUBS SQN LDR RANK

Flt. Lt. A Muthal (19920) BB Sharda (19921), R. Verma (19922), K Sethi (19923) NA Alexander (19924) N Chandra(19925), N Sivakumar(19926) JB Rao (19928), R Ranjan(19929), S Mishra(19930), V Singh(19931), A Shukla(19932), S Panda(19933) 14 January 2000.

## LGS BRANCH

## FLT LT TO BE SUBS SQN LDR RANK

FLT LT BS Panag (19934) N Kishor (19935), AP Ranganathan(19936), SK Mishra (19937), K. Srinivasan (19938), PK Nair (19939), RK Sivastava (19940), C Binoy (19941), S Das (19942), PJ Jadav

(19943), S Balakrishnan (19944), S Chopra (19945), A Sivastava (19946), A Rathore (19947), AK Ranick (19948), VS Kamat (20125) 14 January 2000.

## AE (M) BRANCH

## FLT LT TO BE SUBS SQN LDR RANK

Shrinivas (20240), RK Khazanchi (20238), M Prabhu (20225), H Jaiswal (20236), K Sudhir (20235), Kas Ahamed (20227) VS Sridhar (20224) Umesh Yalla (20223), V Mathur (20239), RP Dubey (20237), HK Gore (20371), A Bhattacharya (20222), S Deckuliar (20363), PS Kannan (20369), S Kataria (20378), M Murugan (20228), B Harish (20370), S Balakumar (20373), S Agrawal (20231), Ashish (20229), Sanjay Shrikant (20379), VK Shrivastava (20364), I Dennath (20226), Vivek Narayan (20380) RC Rastogi (20381), H Kumar (20388), SP Shiroikar (20372), A Shrivastava (20366), NV Jaltare (20365), DS Shakhawat (20230), VS Kolakapadam (20389), GS Bhatia (20374), P Venugopl (20223), SN Rao (20383), RK Ramamoorthy (20368), P Vijayan (20390), L Pereria (20362), Y Chaturvedi (20221), MV Chakradhar (20220), UP Rao (20385), 03 September 1999.

## AE(L) BRANCH

## FLT LT TO BE SUBS SQN LLR RANK

T Samanta (20809), D Singh (20255), S, Somasundaram (20311), AN Wathere (20811), S Sexena (20279), GD Shrivastava (20280), VK Pandey (20289) Sanceep Kishore (20387), S Rao (20277), S Rajgopal (20295), S Pathak (20266), Anand Kumar (20298), AS Gulati (20359), S. Sundrarajan (20305), PP Mishra (20264), SCS Riar (20306), HJ Singh (20253), D Biswas (20245), A Prasad (20297), AK Dutta (20257) AK Singh (20263), AP Kannan (20304), S Kalgonaikar (20290), CS Raj (20261), A Balapurkan (20296), BP Madajan (20310), R Bhan (20256), Satish Kumar (20241), PS Gengopadhyay (20284), M Samuel (20258) MHK Ramamurty (20248), D Sengupta (20246), V Singh (20300), VKSK Tandalam (20275), PK Sen (20243), CS Hiremati (20276), SK Bosh (20391), MP Kartakaria (20377), N Jose (20293), S Sundar (20312), A Darbari (20288), SCP Rathnamma (20286), KSS Prasad (20247), AK Sil (20270), R Sharma (20281), GD Matte (20267),

V Singh (20299), M Jhavar (20376), V Katti (20302), VM Agarwal (20274), G Roman (20269), R. Singh (20367) R Arora (20285), J SINGH, (20263), R Tiwari (20242), CK Sethunath (20273), MK PANI (20249), Vivek Singh (20287), VVJ Rao (20271), C Naganaiah (20309), S V Jh (20301), A Tiwari (20252), A Gautam (20308), D Naskar (20250) C Hadagali (20254), NS Dhanjal (20262), PRS Prakash (20307), HS Cheema (20361), M Kalidas (20357), H S ngi (20303)—03 September 1999.

SV KUTE,  
Sqn. Ldr.  
ADPO 3(D)

No. 486, dated 18 July 2001—The President is pleased to make the following substantive promotion:—

INDIAN AIR FORCE  
F (P) BRANCH

Flt Lt To Be Subs Sqn Ldr Rank

RGK Kapoor (18253), G K Malviya (18261)  
07 June 1997.

Fg Offr To Be Subs Flt Lt Rank

A C Muthana (23137), N Sharma (23138), B S Raminder (23139), K P S ngh (23140), V S Savekar (23141), V S Dhanla (23142) 03 September 1999.

ADM (BRANCH)

Fg Offr To Be Subs Flt Lt Rank

FG OFFER Dilip Shankar (23048), J. Thomas (23049), T S Toby (23050), K K Bhaduri (23051), R S Bisht (23052), Arun Kumar (23053), K Sharma (23054), A Bhattacharya (23055), A V Paranjpe (23056), G Srinivas (23057), KCS Rao (23058) 18 June 1999.

F(P) BRANCH

Fg Offr To be Subs Flt Lt Rank

Fg Offr HS Sekhon (23161), D Singh (23163), S Brahmawar (23164), DK Shah (23165), P Mittal (23166), T Hindwan (23167), AR Giri (23168), S Yadav (23169), S Shukla (23170), R Pandey (23171), AP Singh (23172), P Joseph (23173), M Mehta (23174), K Singh (23175), KYA Baig (23176), AR Thakur (23177), AS Pannu (23178), A Hussain (23179), Manoj Kumar (23180), M Roy (23181), N Deepak (23182), VN Manisa (23183), M Singh (23184), R Lohani (23185), S Chandra (23186), NK Chaubey (23187), S Kumar (23188), RC Nair

(23189), R Verma (23190), BS Bhadana (23191), HS Pannu (23192), Nitian Welde (23193), R Tyagi (23194), P Himanshu (23195), S Sath (23196), DS Dashpand; (23197), MKA Pillai (23198), R Mishra (23199), BS Nijjar (23200), GS Tung (23201) S Abhyankar (23202), S Singh (23204), S Mehta (23203), Amit (23205), S Reddy (23206), SPS Agarwal (23207), A Sur (23208), S Sharma (23209), AJ Mathews (23210), US Rija (23211), S Malhotra (23212), A Pant (23213), AK Choudhary (23214), SK Asthana (23216), DG Nair (23217), AM Khedkar (23218), P Rajendra (23219), 17 December 1999.

F(N) Branch

Fg Offr to be Subs Flt Lt Rank

Fg Offr JD Mishra (23220), JP Yadav (23221), I Malik (23222), DK Lohani (23224), D Kumar (23225), PC Das (23226), SK Mahapatra (23227), VR Manohar (23228), A Srivastava (23229), SK Gaur (23230), P Tripathi (23231), S Sathi (23232), ASK Sharma (23233) RS Kishore (23234), PSR Krishna (23235) 17 December 1999.

A MENON,  
Sqn Ldr  
ADPO 3 (D)

(ARMY BRANCH)

No. 487, Dated 17 July 2001—The President is pleased to permit Lt. Gen RJ Mordecai, PVSM, AVSM (IC—12543 (retd) to relinquish the appointment of Colonel Commandant of the Corps of Engineers with effect from 28 Feb. 2001 (AN).

The President is pleased to permit Lt. Gen. A. N. Sinha, PVSM, AVSM (IC—11870 (retd) to relinquish the appointment of Colonel Commandant of the Corps of Engineers with effect from 31 Oct. 2000 (AN).

N. MARIAPPAN,  
SCSO  
MS (X)

ARMY BRANCH

No. 488, dated 16 July 2001—The President is pleased to retire the undermentioned officer(s) on attaining the age of superannuation as indicated against each:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj Gen NR Rana, VSM (MR-2331A) AMC/PC  
31-01-2001(AN)



Brig PR Sen (MR-2359A) AMC/PC 31-01-2001(AN)

Brig HC Sharma (MR-2727K) AMC/PC  
31-01-2001 (AN)

Brig RP Mehta (MR-2553P) AMC/PC  
31-01-2001 (AN)

Brig MM Singh (MR-2729P) AMC/PC  
31-03-2001 (AN)

Brig PN Arora (MR-2446N) AMC/PC  
31-03-2001 (AN)

Col RK Gupta (MR-2872F) AMC/PC  
31-03-2001 (AN)

Col SR Biswas (MR-2930A) AMC/PC  
28-02-2001 (AN)

Col AK Das (MR-2522P) AMC/PC  
31-03-2001 (AN)

Col JS Verma (MR-2532Y) AMC/PC  
31-03-2001 (AN)

Lt Col BTK Reddy (MR-3815M) AMC/PC  
31-01-2001 (AN)

Lt Col KVP Singh (MR-3311Y) AMC/PC  
31-01-2001 (AN)

Lt Col RC Sharma (MR-2894A) AMC/PC  
31-01-2001 (AN)

Lt Col K Jayarajan (MR-2570P) AMC/PC  
31-01-2001 (AN)

Lt Col RS Vishwen (MR-3744W) AMC/PC  
28-02-2001 (AN)

Lt Col SC Palta (MR-2936F) AMC/PC  
31-03-2001 (AN)

J R BHARDWAJ,  
Maj Gen  
Addl. DGAFMS

No. 489 dated 16 July, 2001—The undermentioned officer awarded the following punishment by the GCM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC—39146 Maj Atul Bhardwaj, M/Inf.

(a) To forfeit three years service for the purpose of promotion.

(b) To be severely reprimanded—01 Dec. 2001

IC-46238 Maj Anurag Chabra, Inf.

(a) To forfeit three years past service for the purpose of pension.

(b) To be severely reprimanded—10 Feb 2001.

IC-56750 Capt PR Das, Inf.

(a) To forfeit three years past service for the purpose of Promotion.

(b) To forfeit three years past service for the purpose of Pension, and

(c) To be severely reprimanded—21 Nov 2000.

IC-46633 Capt Vinod Kumar, ASC.

(a) To forfeit three years service for the purpose of promotion.

(b) Severe reprimanded—09 Mar 2001.

IC-36690 Maj HS Multani, ASC.

(a) To forfeit six years past service for the purpose of pension.

(b) Severe reprimanded—09 Mar 2001.

IC-34237 Maj SS Swain, AOC.

(a) Dismissed from service—16 Jan 2001.

SS-36808 Lt GP Singh, Inf.

(a) To be dismissed from service—03 Apr 1999.

The undermentioned officer awarded the following punishment by the GOC-IN-C WESTCOM.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

JC-54088 Capt PS Naik, Arty.

(a) To forfeit six months of service for purpose of promotion.

(b) To be severely reprimanded—19 Dec 2000.

SD RAI, SCSO  
MS 8C

